

विषय कोड पुस्तिका कोड

**3****A****2018 (II)**  
**जीव विज्ञान****माध्यम****H**

समय : 3:00 घण्टे

**प्रश्न पत्र**

पूर्णका : 200 अंक

अनुदेश

1. आपने हिन्दी को जाग्राम किया है। इस परीक्षा पुरितका में एक चाँदीपातीर (20 भाग 'A' में + 50 भाग 'B' में + 75 भाग 'C' में) बहुत विकल्प प्रश्न (MCQ) दिए गए हैं। आपको भाग 'A' में से अधिकतम 15 और भाग 'B' में 35 प्रश्नों (भाग 'C' में से 25 प्रश्नों के प्रत्यार दिये गए) यदि नियमित से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए गए तो केवल भाग 'A' में 15, भाग 'B' में 35 तथा भाग 'C' में 25 पहले उत्तरों की जांच ही जरूरी।
2. ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक अंतिम रोपण तिथि तक दिया गया है। आपना दोहरा नवबर और फ्रैंड कोड का नाम लिखने से पहले वह जांच दीजिये कि पुस्तिका में पृष्ठ पूर्ण और शाही ई रक्षा कही से कटे-फटे नहीं हैं। यदि ऐसा है तो आप इनियॉलेटर से उसी नोड की पुरितका वेबसाइट का लिंकपत्र कर रखते हैं। इसी तरह से ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक को भी प्राप्त करें। इस पुस्तिका में एक भाग करने में लिए जानिरिक्त 5% ने राखना है।
3. ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक को पृष्ठ 1 में दिए गए उत्तरों पर आपना दोहरा नवबर, ताकि उसमा इस परीक्षा पुरितका का छपाक लिखिये। सामग्री उपलब्ध ही उपलब्ध उत्तरों नीं जाग्राम करें।
4. आप अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में भील नवबर, दिव्या कोड, पुरितका भोड़ और केन्द्र कोड से संबंधित सामुदायिक वृत्ती को काले शैल पेन से अवश्य काढ़ा करें। वह एक नाम परीक्षार्थी की जिम्मेदारी है कि वह ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में दिए गए निर्देशों का पूरी साक्षात्कारी से पालन करें। ऐसा न करने पर कम्बिटर विकरणी भा राही तरीके से अकूटिट नहीं कर पाएगा। जिससे अंततः श्रोपको हानि, जिसमें आपकी ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की अस्तीवृत्ति भी शामिल है, हो सकती है।
5. भाग 'A' तक 'F' में प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक और भाग 'C' में प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। भाग 'A' तक 'B' में प्रत्येक उत्तर का क्रमात्वक मूल्यांक  $\approx 0.50$  अंक तथा भाग 'C' में  $\approx 1$  अंक किया जाएगा।
6. प्रत्येक प्रश्न के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं। हमारे से केवल एक विकल्प ही "सही" अथवा "सहीत्तम" होता है। आपको प्रत्येक प्रश्न का जारी अभ्यन्तर नहीं दिया गया है।
7. नेकल करते हुए या अनुभित गरीबी का प्रदर्शन करते हुए पाप जाने वाले परीक्षार्थी का इस और अन्य नामी परीक्षार्थी के लिए अपोग्राह उत्तराय जा सकता है।
8. परीक्षार्थी का उत्तर या एक प्रश्न के अधिरिक्त कहीं और कुछ भी नहीं लिखता जाता है।
9. केलसूलेटर का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
10. परीक्षा प्रारंभिक तरह छिप लिनित रुपाना से OMR उत्तर पत्रक को लिखाना होता है। इनियॉलेटर को मुख्य OMR उत्तर उक्त भौमने के प्रत्यार अप इसकी कार्बनलेस प्रतिलिपि तो जा सकते हैं।
11. हिन्दी सामग्री/संस्कृत के प्रश्न में लिखेगति ज्ञान/ज्ञान जाने वाले पर अपेक्षी गत्तरण प्रमाणिक होंगा।
12. केवल परीक्षा की यूंही अवधि तक बैठने वाले परीक्षार्थी को ही परीक्षा पुरितका जाप ले जाने की अनुमति ही जरूरी।

रोल नंबर : .....  
नाम : .....

परीक्षार्थी द्वारा भरी गई ज्ञानकारी को में संतुष्टिकारी करता है।

इनियॉलेटर द्वारा हस्ताक्षर

### INSTRUCTIONS



1. This Test Booklet contains one hundred and forty five (20 Part 'A'+50 Part 'B'+75 Part 'C') Multiple Choice Questions (MCQs). You are required to answer a maximum of 15, 35 and 25 questions from part 'A', 'B' and 'C' respectively. If more than required number of questions are answered, only first 15, 35 and 25 questions in Parts 'A', 'B' and 'C' respectively, will be taken up for evaluation.
2. OMR answer sheet has been provided separately. Before you start filling up your particulars, please ensure that the booklet contains requisite number of pages and that these are not torn or mutilated. If it is so, you may request the Invigilator to change the booklet of the same code. Likewise, check the OMR answer sheet also. Sheets for rough work have been appended to the test booklet.
3. Write your Roll No., Name and Serial Number of this Test Booklet on the OMR answer sheet in the space provided. Also put your signatures in the space earmarked.
4. You must darken the appropriate circles with a black ball pen related to Roll Number, Subject Code, Booklet Code and Centre Code on the OMR answer sheet. It is the sole responsibility of the candidate to meticulously follow the instructions given on the Answer Sheet, failing which, the computer shall not be able to decipher the correct details which may ultimately result in loss, including rejection of the OMR answer sheet.
5. Each question in Part 'A' and 'B' carries 2 marks and Part 'C' questions carry 4 marks each respectively. There will be negative marking @ 0.50 marks for each wrong answer in Part 'A' and 'B' and @ 1 marks for Part 'C'.
6. Below each question in Part 'A', 'B' and 'C' four alternatives or responses are given. Only one of these alternatives is the "correct" option to the question. You have to find, for each question, the correct or the best answer.
7. Candidates found copying or resorting to any unfair means are liable to be disqualified from this and future examinations.
8. Candidate should not write anything anywhere except on answer sheet or sheets for rough work.
9. Use of calculator is NOT permitted.
10. After the test is over, at the perforation point, tear the OMR answer sheet, hand over the original OMR answer sheet to the Invigilator and retain the carbonless copy for your record.
11. Candidates who sit for the entire duration of the exam will only be permitted to carry their Test booklet.

## भाग/PART - A


1. एक आयताकार  $30\text{ cm} \times 40\text{ cm}$  फोटोफ्रेम के मध्य में, धारा और  $5\text{ cm}$  का हथियारा छोड़ते हुए, एक चित्र लिप्तवाद्या गया है। इस लिप्तवाद्या का क्षेत्रफल है
1.  $600\text{ cm}^2$
  2.  $350\text{ cm}^2$
  3.  $100\text{ cm}^2$
  4.  $700\text{ cm}^2$
2. A rectangular photo frame of size  $30\text{ cm} \times 40\text{ cm}$  has a photograph mounted at the centre leaving a  $5\text{ cm}$  border all around. The area of the border is
1.  $600\text{ cm}^2$
  2.  $350\text{ cm}^2$
  3.  $400\text{ cm}^2$
  4.  $700\text{ cm}^2$
3. किसी जन्म-दिवस समारोह में हर बच्चे को 2 चॉकलेट, हर माँ को 1 चॉकलेट मिलती है जबकि किसी पिता को और चॉकलेट नहीं मिलती है। कुल मिलाकर 69 लोगों को 70 चॉकलेट मिलती है। यदि बच्चों की संख्या सब माताओं और पिताओं की संख्याओं के बीच भी आपी हो तो वहाँ कितने पिता हैं?
1. 22
  2. 23
  3. 24
  4. 69
4. At a birthday party, every child gets 2 chocolates, every mother gets 1 chocolate, while no father gets a chocolate. In total 69 persons get 70 chocolates. If the number of children is half of the number of mothers and fathers put together, then how many fathers are there?
1. 22
  2. 23
  3. 24
  4. 69
5.  $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + 5^2 - \dots + 17^2 - 18^2 + 19^2$  का न्यूनतम है?
1. -5
  2. 12
  3. 95
  4. 190
6. What is the value of  $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + 5^2 - \dots + 17^2 - 18^2 + 19^2$ ?
1. -5
  2. 12
  3. 95
  4. 190

7. वक्र  $y = 2x^2$  तथा  $y = 4x$  एक दूरसे जौ किसने बिंदुओं पर काटेगी?
1. केवल 1 बिंदु पर।
  2. केवल दो बिंदुओं पर।
  3. दो से अधिक बिंदुओं पर।
  4. किसी भी बिंदु पर नहीं।
8. The curves of  $y = 2x^2$  and  $y = 4x$  intersect each other at
1. only one point.
  2. exactly two points.
  3. more than two points.
  4. no point at all.
9. अन्यथा विलक्षण एक जैसे दो कैमरे A तथा B के सूक्ष्मचिह्नों के व्यास ज्ञात: 500 माइक्रोमीटर तथा 200 माइक्रोमीटर है। तब कैमरे A में बनी छापि
1. कैमरे B से अधिक स्पष्ट होगी।
  2. कैमरे B से गहरे रंग की होगी।
  3. कैमरे B से कम स्पष्ट और अधिक चमकदार होगी।
  4. कैमरे B से अधिक स्पष्ट और अधिक चमकदार होगी।
10. The diameters of the pinholes of two otherwise identical cameras A and B are  $500\text{ }\mu\text{m}$  and  $200\text{ }\mu\text{m}$ , respectively. Then the image in camera A will be
1. sharper than in B
  2. darker than in B
  3. less sharp and brighter than in B
  4. sharper and brighter than in B
11. यदि  $D = ABC + BCA + CAB$  हो जहाँ A, B तथा C दशमलव पदधंति के अंक हैं, तब D इन से विभाज्य है
1. 37 तथा 29
  2. 37 से लेकिन 29 से नहीं
  3. 29 से लेकिन 37 से नहीं
  4. 29 और 37 से से किसी से नहीं
12. If  $D = ABC + BCA + CAB$  where A, B and C are decimal digits, then D is divisible by
1. 37 and 29
  2. 37 but not 29


3. 29 but not 37  
4. neither 29 nor 37
7. निम्न पर्यावरणों के समूह के लिए  
{60, 65, 65, 70, 70, 70, 70, 82, 85, 90, 95, 95, 100, 100, 160},  
निम्न में से कौन सा त्रुक्तव्य रही है?  
1. बहुलक < माध्यम < माध्य  
2. बहुलक < माध्य < माध्यम  
3. माध्य < माध्यम < बहुलक  
4. माध्यम < बहुलक < माध्य
7. For the following set of observed values {60, 65, 65, 70, 70, 70, 70, 82, 85, 90, 95, 95, 100, 100, 160}, which of the statements is true?  
1. mode < median < mean  
2. mode < mean < median  
3. mean < median < mode  
4. median < mode < mean
8. एक चून्तीकार धावक पथ में एक-एक मीटर छोड़ती है, लेन है। सबसे बाहरी लेन के धावक को सबसे अनदर की लेन के धावक से (मीटर इकाई में) कितना आगे रखना होगा कि एक लैप में दोनों को बराबर दूरी तय करनी पड़े?  
1.  $6\pi$                                    2.  $10\pi$   
3.  $12\pi$                                    4.  $36\pi$
8. A circular running track has six lanes, each 1 m wide. How far ahead (in metres) should the runner in the outermost lane start from, so as to cover the same distance in one lap as the runner in the innermost lane?  
1.  $6\pi$                                    2.  $10\pi$   
3.  $12\pi$                                    4.  $36\pi$
9. एक परीक्षा में एक-एक अंक के 100 प्रश्न दिए गए हैं। परीक्षा के बाद, 20 प्रश्नों का मूल्यांकन जू करने का निर्णय होता है जिससे कुल 100 अंक 80 प्रश्नों पर दिए जाने हैं। अब A ने हटाए गए प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे तथा उसकी 40 अंक दिए जाएं। अब कि जब B ने हटाए गए प्रश्नों में से 10 के सही उत्तर दिए थे और 35 अंक प्राप्त किए। इस परिस्थिति में  
1. A तथा B दोनों को बराबर लाभ मिला।  
2. A तथा B ने समान हानि उठाई।  
3. B को A की तुलना में अधिक हानि हुई।  
4. A को B की तुलना में अधिक हानि हुई।
9. In an examination 100 questions of 1 mark each are given. After the examination, 20 questions are deleted from evaluation, leaving 80 questions with a total of 100 marks. Student A had answered 4 of the deleted questions correctly and got 40 marks, whereas student B had answered 10 of the deleted questions correctly and got 35 marks. In this situation  
1. A and B were equally benefited.  
2. A and B lost equally.  
3. B lost more than A.  
4. A lost more than B.
10. एक पर्यटक 20 km पूर्व दिशा में जाता है, फिर दाये मुड़ कर 6 km जाता है, उसके बाद 6 km पश्चिम दिशा में जाता है। फिर वह अपने दाये मुड़ कर चार किलो मीटर जाता है तथा अंततः दाये मुड़ कर 14 किलो मीटर जाता है। अब वह आरंभिक बिन्दु से कहा परा है?  
1. 6 km पूर्व में  
2. 20 km पश्चिम में  
3. 14 km उत्तर में  
4. 10 km दक्षिण में
10. A tourist drives 20 km towards east, turns right and drives 6 km, then drives 6 km towards west. He then turns to his left and drives 4 km and finally turns right and drives 14 km. Where is he from his starting point?  
1. 6 km towards east  
2. 20 km towards west  
3. 14 km towards north  
4. 10 km towards south
11. यदि 'SELDON' का अर्थ 'NOODLES' है तो 'SPUDS' से क्या अर्थ होगा?  
1. SALAD                                 2. SOUPS  
3. RASAM                                   4. ONION

11. If 'SELDOON' means 'NOODLES' then what does 'SPUOS' mean?  
 1. SALAD                    2. SOUPS  
 3. RASAM                    4. ONION
12. एक आदर्श लोतक उर्ध्व से  $30^\circ$  के कोणीय आयाम से दोलन करता है। यदि इसे किसी याहूदिक तम्य अंतराल पर देखा जाये तो इसके अंतर्व से कोणीय विषयता का सवीधिक संज्ञान मान होगा।  
 1.  $0^\circ$                         2.  $\pm 10^\circ$   
 3.  $\pm 20^\circ$                     4.  $\pm 30^\circ$
12. An ideal pendulum oscillates with angular amplitude of  $30^\circ$  from the vertical. If it is observed at a random instant of time, its angular deviation from the vertical is most likely to be.  
 1.  $0^\circ$                         2.  $\pm 10^\circ$   
 3.  $\pm 20^\circ$                     4.  $\pm 30^\circ$
13. एक समतल धरातल पर टाइर्न लगाने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा बहुभूज चिकित्सा है?  
 1. समबाहु त्रिभुज  
 2. चौरा  
 3. नियमित पञ्चभूज  
 4. नियमित पठ्ठेजुज
13. In the context of tiling a plane surface, which of the following polygons is the odd one out?  
 1. Equilateral triangle  
 2. Square  
 3. Regular pentagon  
 4. Regular hexagon
14. चित्र में सेपल A तथा B के x तथा y चरों के जोड़ों के प्रेक्षण को छिपाये हुए प्लॉट से दर्शाया गया है।
- 
- निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लॉट से सुझाया गया है?
1. तथा y के मध्य सह-संबंध A में B की अपेक्षा अधिक अनुपात है।  
 2. x तथा y के मध्य सह-संबंध B में अनुपस्थित है।  
 3. x तथा y के मध्य सह-संबंध A में B की अपेक्षा कमज़ोर है।  
 4. x तथा y के मध्य कारण-प्रभाव संबंध A में है लेकिन B में नहीं है।
14. Scatter plots for pairs of observations on the variables x and y in samples A and B are shown in the figure.
- 
- Which of the following is suggested by the plots?  
 1. Correlation between x and y is stronger in A than in B.  
 2. Correlation between x and y is absent in B.  
 3. Correlation between x and y is weaker in A than in B.  
 4. y and x have a cause - effect relationship in A, but not in B.
15. X तथा Y दो घोलों को जिनके संघटक A, B तथा C, a:b:c तथा c:b:a ज्ञात के अनुपात में हैं, मिश्रित किया गया है। परिणामतः प्राप्त मिश्रण में A, B तथा C ये समान अनुपात में हैं, इसके लिए अवश्यक है कि  
 1.  $b = \frac{c-a}{z}$                         2.  $c = \frac{a+b}{2}$   
 3.  $c = \frac{a-b}{z}$                         4.  $b = \frac{a+c}{z}$
15. Two solutions X and Y containing ingredients A, B and C in proportions  $a:b:c$  and  $c:b:a$ , respectively, are mixed. For the resultant mixture to have A, B and C in equal proportion, it is necessary that  
 1.  $b = \frac{c-a}{z}$                         2.  $c = \frac{a+b}{2}$   
 3.  $c = \frac{a-b}{z}$                         4.  $b = \frac{a+c}{z}$

16. नीचे दी गयी क्रेणी में लापता चित्र को जात करें।




1. 2. 3. 4.
16. Find the missing figure in the following sequence:




1. 2. 3. 4.

17. त्रिभुज ABC में AB = 11, BC = 61, AC = 60. तथा BC का मध्य बिंदु O है। तब AO है



(Not to scale)

1. 18.5                    2. 24.0  
3. 30.5                    4. 36.0
17. In triangle ABC, AB = 11, BC = 61, AC = 60, and O is the mid-point of BC. Then AO is



(Not to scale)

1. 18.5                    2. 24.0  
3. 30.5                    4. 36.0

18. एक आधिकारिक के तीन भागों के क्षेत्रफल को उसी समाई इकाई में दिया गया है। आधिकारिक का कुल क्षेत्रफल निम्नलिखित है?

3	9
6	

1. 18                    2. 24  
3. 36                    4. 108

18. Areas of three parts of a rectangle are given in unit of  $\text{cm}^2$ . What is the total area of the rectangle?

3	9
6	

1. 18                    2. 24  
3. 36                    4. 108

19. कोई भी विद्यार्थी के बीच रसायन विज्ञान, कंवर्स और विज्ञान या दोनों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। यदि 32 विद्यार्थियों में से 16 ने रसायन विज्ञान को चुना है तथा 25 ने जीव विज्ञान को, तो कितने विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान को तो चुना है, परंतु रसायन विज्ञान को नहीं?

1. 9                    2. 16  
3. 25                    4. 7

19. A student is free to choose only Chemistry, only Biology or both. If out of 32 students, Chemistry has been chosen by 16 and Biology by 25, then how many students have chosen Biology but not Chemistry?

1. 9                    2. 16  
3. 25                    4. 7

20. किसी हवाई बाहरी के डैनी व इंजिनी द्वारा उत्पन्न उत्थापन (एवा द्वारा उपरिमुखी द्वारा)

1. नीचे उतरते समय घटात्मक (ऊपर की ओर) तथा ऊपरी से उठते वक्त घटात्मक (नीचे की ओर) है।  
2. नीचे उतरते समय घटात्मक (नीचे की ओर) तथा ऊपरी से उठते वक्त घटात्मक (ऊपर की ओर) है।

3. नीचे उतरते समय तथा ऊपरी से उठते समय दोनों में कृपालनक है।
4. नीचे उतरते समय तथा ऊपरी से उठते समय दोनों में धनात्मक है।
20. The lift (upward force due to air) generated by the wings and engines of an aircraft is
- positive (upwards) while landing and negative (downwards) while taking off.
  - negative (downwards) while landing and positive (upwards) while taking off.
  - negative (downwards) while landing as well as while taking off.
  - positive (upwards) while landing as well as while taking off.
22. प्रोटीन आवृत्तिशी पर निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है?
- उबीनो अम्लों के पाश्वे जड़ियों के द्रवितल बोध रासायनिक रेखांकित में वर्णित होते हैं।
  - अधरकत स्पेक्ट्रोमिकों का उपयोग पेप्टाइड्स में हाइड्रोजन बन्ध निगमन हेतु किया जा सकता है।
  - 100 °C में अन्तर से निर्मित प्रोटीन के विद्यमान संरचनामी को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडिओवर्स स्पेक्ट्रोमित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
  - बोल्सिकाम्ब प्रोटीन में α-कुंडलिनो और β-पट्टर घटक होते हैं।

## भाग /PART - B

21. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है?
- प्रतिविम्ब रूपों के विशिष्ट आवर्तन एक समान होते।
  - पथम कोटि की अण्डियां के रिथराक दर में केवल रामाय की ईकाइ होती है, परन्तु सद्व्याप्त ईकाइयां नहीं होती हैं।
  - pH + pOH का मान तापमान पर निभर करता है।
  - C-C- का बन्ध विस्थायन ऊर्जा (kJ/mol) -C≡C- से अधिक होगा।
22. Which one of the following statements is true?
- The specific rotation of enantiomers will be identical.
  - The rate constant of a first order reaction has only time but no concentration units.
  - The value of pH + pOH depends on temperature.
  - The bond dissociation energy (kJ/mol) of -C-C- will be greater than -C≡C-.

22. Which one of the following statements on protein conformation is NOT true?
- Dihedral angles of side-chains in amino acids are depicted in the Ramachandran plot.
  - Infrared spectroscopy can be used to deduce hydrogen bonding in peptides.
  - Three dimensional structures of protein composed of ~100 amino acids can be obtained by nuclear magnetic resonance spectroscopy.
  - Globular proteins have  $\alpha$ -helical and  $\beta$ -sheet components.
23. जैवसंश्लेषण पर निम्नलिखित वक्तव्यों में से सही उत्तर का चयन करें।
- पार्सोटेट अंजैत्यरूप निर्माण में सभी कार्बन परमाणु निकायकृत ऐलेनेट से व्युत्पन्न हैं।
  - अधिकांश जीवाणुओं में Met, Thr, Lys, Ile, Val तथा Leu नामक अम्लीनो अम्ल ऐलेनोपर्टेट और पाइरुवेट के जैवसंश्लेषण होते हैं।
  - पौरफाइलेन के जैवसंश्लेषण के लिए पलेनोन एक प्रमुख उद्यात है।
  - इपिनेफ्रिन के जैवसंश्लेषण ने ट्रिप्टोफेन L-DOPA में रूपान्तरित हो जाता है।

23. Choose the correct answer from the following statements on biosynthesis.
- In the biosynthesis of palmitate, all the carbon atoms are derived from activated malonate.
  - The amino acids Met, Thr, Lys, Ile, Val and Leu are biosynthesized from oxaloacetate and pyruvate in most bacteria.
  - Alanine is a major precursor for the biosynthesis of porphyrin.
  - Tryptophan is converted to L-DOPA in the biosynthesis of epinephrine.
24. न्यूकिल के अस्त्रों पर निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन-सा एक सही नहीं है।
- DNA में राइबोज में आकृति 3'-2'-डिओक्सी-D-राइबोफ्युरानोज है।
  - एरिय अक्सरा में RNA का जल-अपघटन DNA से भिन्न होता है, क्योंकि RNA में 2'-हाइड्रोक्सिल अंतःअणुक विस्थापन प्रक्रिया में जाग्रिक्सनही के रूप में अभिक्रिया करता है।
  - DNA विभिन्न विविध स्वरूपों में प्राप्त हो सकता है।
  - DNA में साइटोसीन से योगिल में विअमीनीकरण नाम-इन्जाइमेटिक ढंग से हो सकता है।
25. Which one of the following statements on nucleic acids is NOT true?
- The conformation of ribose in DNA is  $\alpha$ -2-deoxy-D-ribofuranose.
  - Hydrolysis of RNA takes place under alkaline conditions unlike DNA, as the 2'-hydroxyl in RNA acts as a nucleophile in an intramolecular displacement.
  - DNA can occur in different three-dimensional forms.
  - In DNA, deamination of cytosine to uracil can occur in a non-enzymatic manner.
26. यदि विलयन में जल-अपघटन ट्रैक्चर करमो-विलसराइड से दो फैटी एसिड शैखला में से एक को हटा दिया जाय, तो ऐसा फास्फोलिपिड निम्नलिखित होगा।
- लाइफॉलोम्ब
  - मिरेल्स
  - फास्फोलिपिड द्विवस्तरी
  - सिमिट्रिक फास्फोलिपिड द्विवस्तरी
27. If one of the two fatty acyl chains is removed from the phosphoglyceride by hydrolysis in solution, such phospholipids will form.
- liposomes
  - micelles
  - phospholipid bilayer
  - symmetric phospholipid bilayer
28. उत्तरजल्सु कोशिका ध्रुव में, मैटाफेज से एनाफेज परिवर्तनकाल का नियन्त्रण विभ्न की सक्रियता होता है।
- Cdk1/cyclinB
  - APC/C
  - Cdc25
  - Wee1
29. In metazoan cell cycle, metaphase to anaphase transition is regulated by the activity of:
- Cdk1/cyclinB
  - APC/C
  - Cdc25
  - Wee1
30. गालव गुणसूत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है।
- गुणसूत्र जो उद्घाटन जीन घनत्व बढ़ाते हैं वे समसाम्यता के नियंत्रक के मध्य की तरफ स्थानांतर रहते हैं।
  - गुणसूत्र जो उद्घाटन जीन घनत्व बढ़ाते हैं वे समसाम्यता नवजात अनुशेषण के स्वरित सबहन की सुगमता के लिए केन्द्रक की परिधि के समीप स्थानांतर रहते हैं।
  - विभिन्न गुणसूत्रों के सूचकांक केन्द्रक के मध्य में समुदाद्य होते हैं।
  - केन्द्रक में गुणसूत्रों की स्थिति पूरीतरा अनियमित होते हैं।

27. Which one of the following statements is true about human chromosomes?
- The chromosomes that have highest gene density generally localize towards the centre of the nucleus.
  - The chromosomes that have highest gene density generally localize near the nuclear periphery to facilitate rapid transport of the nascent transcripts.
  - The centromeres of different chromosomes tend to cluster together at the centre of the nucleus.
  - Chromosomal positioning in the nucleus is absolutely random.
28. निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन-सा एक अन्तर्राष्ट्रीय जालिका में प्रोटीन के बल्यन से संलग्न नहीं रहता है?
- पेप्टाइडिल प्रोतीन अमिनोसिरेज
  - प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज
  - प्रोटीन स्लाइकोसाइलेशन
  - प्रोटीन थ्रिप्रिंटिंशन
29. Which one of the following activities is NOT involved in protein folding in the endoplasmic reticulum?
- Peptidyl prolyl isomerase
  - Protein disulphide isomerase
  - Protein glycosylation
  - Protein ubiquitination
30. निम्नलिखित DNA अनुक्रम द्वारा उत्पन्न अनुलेख के अनुवाद द्वारा कौन-सा ट्रायपेप्टाइड निर्मित होगा?
- 3'-A A G T A C T C T - 5'
- Arg - Phe - Trp
  - Arg - Leu - Gly
  - Thr - Lys - Ser
  - Phe - Met - Arg
31. What would be the tripeptide produced by translation of the transcript produced by the following DNA sequence?
- 3'-A A G T A C T C T - 5'
- Arg - Phe - Trp
  - Arg - Leu - Gly
  - Thr - Lys - Ser
  - Phe - Met - Arg
32. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है:
- प्रोटीन के भाव नियंत्रण RNA पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करता है।
  - सभी tRNA अणु न्यूक्लियोटाइड्स के राखाराहित बहुलक हैं।
  - tRNA का संश्लेषण 5' की दिशा में, जबकि RNA संश्लेषण 3'-5' की दिशा में होता है।
  - एक tRNA प्रतिप्रकूट एक से औपेक कूटों के भाव युग्मित हो सकता है।

31. Which one of the following statements is generally true about RNA polymerase II?
- It is dedicated to transcribing RNA from a single transcription unit, generally a large transcript which is then processed to yield three types of ribosomal RNA.
  - It transcribes varieties of small non-coding RNAs which are expressed in all cell types.
  - It generally synthesizes various types of mRNAs and small non-coding RNAs.
  - It is exclusively involved in synthesis of rRNA and tRNA.
32. विकाश पर्याप्ति के पारंपरागत मनुष्यों को शिथित करने की विम्लिन पट्टिया अप्रवास है। विम्लिनित में ये कौन-सा कायदा सत्य नहीं है।
- हम्मन इम्यूनोडिफिग्युल्मी बाइरस (HIV) CD4+ T कोशिकाओं को विकाश करता है।
  - इप्स्टीन-बार वाइरस (EBV) हम्मन IL-10 का समजात पैदा करता है।
  - हम्मन इनफ्लूएन्जा वाइरस प्रत्यक्ष तौर पर COS+ T कोशिकाओं को संक्रमित करता है।
  - हम्मन साइटोमीग्लो बाइरस (CMV) अस्थिमान्जा मूल कोशिकाओं में अव्यक्त सक्रान्त स्थापित करता है।
33. Viruses adopt different strategies to suppress immune response of the host. Which one of the following statements is NOT correct?
- Human Immunodeficiency Virus (HIV) destroys CD4+ T cells.
  - Epstein-Barr Virus (EBV) produces a homolog of human IL-10.
  - Human Influenza virus directly infects CD8+ T cells.
  - Human Cytomegalovirus (CMV) establishes latent infection in bone marrow stem cells.
34. विम्लिनित में ये कौन-सा एक स्तराधारी प्रणाली में कार्डिका चूदधि से गवाहित सेरोन/थीओनिन प्रोटीन कार्डनेज, mTOR को नियंत्रित करता है?
- रिफ्फासाइरिन
  - पैपानाइरिन
  - इरिथ्रोमाइरिन
  - बलोरस्टोनिकॉल
35. Which one of the following inactivates the serine/threonine protein kinase, mTOR, related to cell growth in mammalian system?
- Rifamycin
  - Rapamycin
  - Erythromycin
  - Chloramphenicol
36. विम्लिनित अद्युक कोशिका की उत्पत्ति की उनका जामकरण के साथ लिलान करें।
- | अद्युक कोशिका उत्पत्ति | जामकरण         |
|------------------------|----------------|
| A एशो कोशिका           | a कार्डिनामा   |
| B अनन्त कोशिका         | b आकॉमा        |
| C उपकला कोशिका         | c ल्यूकोग्या   |
| D शैवत रक्तस कोशिका    | d देरोनासिनोमा |
37. Match the following tumor cell origin with their nomenclature.
- | TUMOR CELL ORIGIN  | NOMENCLATURE      |
|--------------------|-------------------|
| A Muscle cell      | a Carcroma        |
| B Germ cell        | b Sarcoma         |
| C Epithelial Cell  | c Leukemia        |
| D White blood cell | d Teratocarcinoma |
- A - a, B - b, C - d, D - b
  - A - d, B - a, C - b, D - c
  - A - c, B - b, C - d, D - a
  - A - b, B - d, C - a, D - c
38. बहुराशक साइटोकिनका I लिम्फोसाइट लक्षित कोशिकाओं को बध करने की प्रक्रिया का प्रारम्भ उन अपुओं के वितरण के द्वारा जो कि लक्षित कोशिकाओं को सीधे तौर पर झूति पहुचाते हैं, ये करते हैं। विम्लिनित में से कौन-सा एक अधिकात्म उपयुक्त है।
- हाल्टरफेरिन
  - पेरोम्सोनाइट्राइट
  - लाइसेजाइम
  - ऐन्जाइम

35. Many cytotoxic T lymphocytes initiate killing of target cells via delivery of molecules that could induce target-cell damage directly. Which one of the following is the most appropriate?
- Interferon  $\gamma$
  - Peroxynitrite
  - Lysozyme
  - Granzyme
36. सी अर्थिन के शुक्राणुओं में हिलिका-परिषद्ध गॉल्जी-ट्यूप्सन सरचनाएं जिसमें प्रोटोस्लिटिक इन्जाइम होती हैं, जाने जाते हैं
- दलकुटी कणिकावै
  - लघुछड़ी
  - अग्रिपिडक पुटिका
  - वृहतखड़ी
36. Membrane-bound, Golgi-derived structures containing proteolytic enzymes in sperms of sea urchin are called
- cortical granules
  - micromeres
  - acrosomal vesicles
  - macromeres
37. हाइड्रा के सदर्भ में अधीरथ संगठक का प्रमुख शीर्ष प्रेरक एक विहित  $\beta$ -केटेजिन पथ द्वारा सक्रिय Wnt प्रोटीन का एक समुच्चय होता है। यथा परिणाम होता, यदि एक पाइजीमी हाइड्रा को Wnt इफेक्टर  $\beta$ -केटेजिन अनुप्रवाह का वैशिक स्तर पर बेमैल अभिव्यक्त करने के लिए बनाया जाए?
- सम्पूर्ण काशा अंश पर वाह्य स्थानिक कलियां बनेगी और यहां तक कि नवरुक्ति कलियां के शीर्ष पर भी;
  - सभी स्तरों पर याह्य स्थानिक स्पर्शक बनेगी;
  - याह्य स्थानिक स्पर्शक एवं कलियां दोनों ही काशा अंश पर बनेगीं।
  - कोई भी परिवर्तन परिस्थित नहीं होगा।
37. In case of Hydra, the major head inducer of the hypostome organizer is a set of Wnt proteins acting through the canonical  $\beta$ -catenin pathway. What would be the result, if a transgenic Hydra is made to globally mis-express the downstream Wnt effector  $\beta$ -catenin?
- Ectopic buds will be formed all along the body axis and even on the top of the newly formed buds.
  - Ectopic tentacles form at all levels.
  - Both ectopic tentacles and buds would be formed along the body axis.
  - There would be no change observed.
38. हिलिका नली के कोशिका निर्दिष्ट प्रतिरूप और तंत्रिकाभवन, दोनों में ही TGF- $\beta$  और सोनिक हेड्जेहोग संकेत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है?
- BMP का उच्च स्तर कोशिकाओं को वाह्य त्वचा संभवन हेतु निर्दिष्ट करते हैं।
  - BMP का अतिनिम्न स्तर कोशिकाओं को वाह्य त्वचा संभवन हेतु निर्दिष्ट करते हैं।
  - BMP का उच्च स्तर कोशिकाओं को तंत्रिका घटिका संभवन हेतु निर्दिष्ट करते हैं।
  - BMP का मध्यस्थी स्तर तंत्रिका शिखर कोशिकाओं के संभवन को प्रभावित नहीं करते।
38. Both TGF- $\beta$  and Sonic hedgehog signals play important roles in both neurulation and cell-fate patterning of the neural tube. Which one of the following statements is true?
- High levels of BMP specify the cells to become epidermis.
  - Very low levels of BMP specify the cells to become epidermis.
  - High levels of BMP specify the cells to become neural plate.
  - Intermediate levels of BMP do not effect the formation of neural crest cells.
39. एरेबिडोप्सिस भूगतनन के कौन से प्रदृशन में अप्रसंगतिका राखरथम देखी गई?
- आष्ट्रोथक
  - त्वचाजन
  - गोलाकार
  - परिवर्तनकाल
39. In which stage of Arabidopsis embryogenesis is hypophysis first observed?
- Octant
  - Dermatogen
  - Globular
  - Transition

40. निम्नलिखित खनिज हीनता में से कौन-सी एक तरण परियाँ में सर्वप्रथम दिखेगी?
1. कैल्शियम
  2. नाइट्रोजन
  3. जिंक
  4. मॉल्ब्यडेनम
40. Which one of the following mineral deficiency will first be visible in younger leaves?
1. Calcium
  2. Nitrogen
  3. Zinc
  4. Molybdenum
41.  $C_3$  पादपों के लिए  $CO_2$  प्रतिफलन विन्टु  $C_4$  पादपों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि  $C_3$  पादपों में
1. अद्वितीय श्वसन उच्च होता है
  2. अद्वितीय श्वसन निम्न होता है
  3. दीप्त श्वसन उपस्थित होता है
  4. दीप्त श्वसन अनुपस्थित होता है
41. The  $CO_2$  compensation point for  $C_3$  plants is greater than  $C_4$  plants because in  $C_3$  plants
1. dark respiration is higher
  2. dark respiration is lower
  3. photorespiration is present
  4. photorespiration is absent
42. निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ में जल एवं धारकों के स्थानात्मक के दौरान कैस्परियन कहाँ की क्रियाविधि का उत्कृष्ट वर्णन करता है?
1. एपोप्सास्टिक पीपुक अभिगमन को अवश्यक करता है
  2. सिम्प्लस्टिक पीपुक अभिगमन को अवश्यक करता है
  3. पीपुक भवग्रहक के स्पृष्ट में कार्प कहता है
  4. यथ कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है
42. Which one of the following best describes the function of Caspary bands during the translocation of nutrients and water across the root?
1. Block apoplastic nutrient transport
  2. Block symplastic nutrient transport
  3. Act as a nutrient carrier
  4. Help in creating passage cells
43. निम्नलिखित धटकों में से कौन से एक की पौधे के पोषकदाही रस में व्युत्पन्नता की अपेक्षा की जा सकती है?
1. प्रोटीन
  2. कार्बनिक अम्ल
  3. शर्करा
  4. फॉस्फेट
43. Which one of the following components is expected to be most abundant in the phloem sap of a plant?
1. Proteins
  2. Organic acids
  3. Sugars
  4. Phosphates
44. निम्नलिखित में से कौन सा एक कैपिलेरी अंतर्रुत्र द्वारा ग्राहित नहीं होता?
1. प्रोस्टासाइकिलिन
  2. गुएनोसीन
  3. एन्डोथेलिन
  4. नाइट्रिक ऑक्साइड
44. Which one of the following is NOT secreted by capillary endothelium?
1. Prostacyclin
  2. Guanosine
  3. Endothelin
  4. Nitric oxide
45. रक्तचाप में 'मेर्यर वेल्स' उत्पन्न होने का कारण है
1. निलय का प्रकुप्ति और अनुरोधित
  2. निश्वसन और निःश्वसन
  3. तंत्रिका दाढ़ लियडण क्रियाविधि का प्रतिवर्ती दौलत
  4. बैनब्रिज प्रतिवर्ती
45. The "Mayer waves" in the blood pressure originate due to
1. systole and diastole of ventricle
  2. inspiration and expiration
  3. reflex oscillation of neural pressure control mechanisms
  4. Bainbridge reflex

46. लाल रक्त कणिकाओं की परिपक्वता इन पर निम्न नहीं होती है।  
 1. फोलिक अम्स  
 2. विटामिन  $B_{12}$   
 3. पाइडिओविसिन  
 4. टौकोफेरोल
46. The maturation of red blood cells does not depend on  
 1. folic acid  
 2. vitamin  $B_{12}$   
 3. pyridoxine  
 4. tocopherol
47. निम्नसिद्धि में से कौन-सा एन्जीओट्रान्सिल II का कार्य नहीं है?  
 1. उत्तेन-गूच्छिका अनुक्रमों तंत्रिकाघटिका से नार्सिनेशन के साथ कर सुनिश्चित  
 2. भस्त्रशक पर छिथा द्वारा बायप्रतिवर्त की सुधाहयता बढ़ाना  
 3. एन्टीरिओतेर संकुप्तन उत्तेन करना  
 4. वेसोप्रेसिन के प्राव को बढ़ाना
47. Which one of the following is NOT a function of enolactosin II?  
 1. Facilitates the release of norepinephrine from post-ganglionic sympathetic neurons  
 2. Increases the sensitivity of baroreflex by acting on brain  
 3. Produces arteriolar contraction  
 4. Increases the secretion of Vasopressin
48. मौजे दी गई वशावती एक अलिंगस्ट्री निष्प्रभावी लक्षण के वश्यनुगति को प्रस्तुत करता है।
- 
- निम्नित 6 के विषमयुग्मज होने की क्षमा प्राप्तिकर्ता है?  
 1. 1/4  
 2. 1/2  
 3. 2/3  
 4. 1/3
48. The pedigree below represents the inheritance of an autosomal recessive trait.
- 
- What is the probability that individual "6" is a heterozygote?  
 1. 1/4  
 2. 1/2  
 3. 2/3  
 4. 1/3
49. डासोपिला में विकल्पी / अप्रभावी, लिंग-सहजनी और धातक होता है जब वह सहयुग्मजी या अर्धयुग्मजी अवस्था में होता है। यदि जीवप्ररूप L<sup>+</sup> के मादा और एक नर के साथ संकरण कराया जाय, तो संतान में मादा : नर का अनुपात क्या होगा?  
 1. 3♀ : 1♂  
 2. 2♀ : 1♂  
 3. 1♀ : 1♂  
 4. 1♀ : 2♂
49. The allele *L* in *Drosophila* is recessive, sex-linked and lethal when homozygous or hemizygous. If a female of the genotype *L<sup>+</sup>* is crossed with a male, what is the ratio of females : males in the progeny?  
 1. 3♀ : 1♂  
 2. 2♀ : 1♂  
 3. 1♀ : 1♂  
 4. 1♀ : 2♂
50. क्षारकों का विएमीलीकरण एक सामान्य रासायनिक घटना है जो स्वतं उत्परिवर्तन बढ़ा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 5-मिथाइल-साइटोसिन के विएमीलीकरण से उत्पन्न होगा?  
 1. यूरेसिल  
 2. थाइमिन  
 3. साइटोरिन  
 4. गुणिन
50. Deamination of bases is a common chemical event that produces spontaneous mutation. Which one of the following bases will be formed by deamination of 5-methylcytosine?  
 1. Uracil  
 2. Thymine  
 3. Cytosine  
 4. Guanine



51. एक पादप जाति के 2000 गोर्धों की आबादी में एक विस्थल मर आनुवंशिक अंतर विक्रम रेग के पृष्ठ लिमिट करते हैं। ये विकल्पी अपूर्णरूप से प्रवाही हैं। इस आबादी में 100 की सख्ता में "जीव प्ररूप (जीव पृष्ठ) चाले 800 की सख्ता में Rr और rrरूप (गुलाबी पृष्ठ) चाले और शेष rr और rrरूप (लाल पृष्ठ) चाले हैं। इस आबादी में औरप्ररूप की आवृत्ति क्या होगी?
1. 0.25
  2. 0.50
  3. 0.75
  4. 1.00
52. In a population of 2000 individuals of a plant species, genetic difference at a single locus leads to different flower colours. The alleles are incompletely dominant. The population has 100 individuals with the genotype *rr* (white flowers), 800 individuals with the genotype *Rr* (pink flower) and the remaining have genotype *RR* (red flowers). What is the frequency of the *r* allele in the population?
1. 0.25
  2. 0.50
  3. 0.75
  4. 1.00
53. निम्नलिखित में से कौन से लवक कूटसेचन को जीवन के बास्कोड के लिए बहित पादप कार्यकारी समूह संघ द्वारा भूल बास्कोड के रूप में संस्थापित की गई है?
1. COI तथा rbcL
  2. rbcL, तथा matK
  3. COI तथा matK
  4. वैवल rbcL
54. Which of the following plastid coding region(s) have been recommended as a core barcode by Plant Working Group of the consortium for the Barcode of Life?
1. COI and rbcL
  2. rbcL and matK
  3. COI and matK
  4. rbcL only
55. नीचे दिये गये कुछ कथन निम्नस्तर के यौगिकोऑन्स से संबंधित हैं। यत्तत कथन का चुनाव कर।
1. हेलोसोरा और ग्रामिति के साथ डिप्लोब्लास्टिक हैं।
  2. प्लज्मोजोऑन्स, उत्तक परती के द्वितीय डिमेटन के साथ डिप्लोब्लास्टिक नहीं हैं।
  3. नाइट्रोरियन अपने डिप्लोब्लास्टिक द्वितीय जीवन-चक्र के साथ डिप्लोब्लास्टिक हैं।
  4. हाइड्रोजोऑन्स, एक नाइट्रोरियन संवर्गी, प्रायः अपने जीवन-चक्र में कैलोनियल परिप्रक्रमण हैं।
53. Given below are some statements related to lower eukaryotes. Select the INCORRECT statement.
1. Ctenophores are diploblastic with radial symmetry.
  2. Placozoans, with weakly differentiated tissue layers, are not diploblasts.
  3. Cnidarians are diploblastic with typically two stages in their life cycle.
  4. Hydrozoans, a Cnidarian class, often have colonial polyps in their life cycle.
54. निम्नांकित अपशिष्ट उत्सर्जन प्रकार के आधार पर जन्मतुअ को अमोनोटेलिक, यूरिओटेलिक और यूरिकोटेलिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नीचे जीवों के ममता और उत्सर्जन प्रकार का स्थोरन दिया गया है। उनमें से सही संयोजन का चुनाव कर।
1. फोरिफरेन्स, प्रीढ़ प्रिमिफिलियल्स, कार्टिलेजिनस किशोज अमोनोटेलिक होते हैं।
  2. एस्करिस, कॉकरोच, प्रान यूरिकोटेलिक होते हैं।
  3. परामीतियन, एमिनोट्रिप्टन टेडफल, ब्रोकोडडल नुखायता अमोनोटेलिक होते हैं।
  4. ह्यूमन, शर्क और जलीय एन्युरास यूरिओटेलिक होते हैं।
54. Based on the type of excretion of nitrogenous waste, animals can be categorized as ammonotelic, ureotelic and uricotelic. Given below are combinations of groups of organisms and type of excretion. Select the correct combination.
1. Poriferans, adult amphibians, cartilaginous fishes are ammonotelic.
  2. Ascaris, cockroaches, prawn are uricotelic.
  3. Paramecium, amphibian tadpoles, crocodiles are mainly ammonotelic.
  4. Humans, sharks and aquatic anurans are ureotelic.

55. अधिकारी आवृत्तियों का प्रतिलिपित्व नीचे दिए गए शब्दोंमें द्वारा नहीं किये जाते।
- क्लोरोफिलस
  - निम्फाइलस
  - एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट
  - एम्बोरिलेस्स
56. Basal angiosperms are NOT represented by the members of:
- Chloranthales
  - Nymphaeales
  - Austrobaileyales
  - Amborellales
57. निम्नलिखित में से भैंन से बड़ता क्रम लिखिए पारिवर्त्यितिक होती है। टैकिक चूदध प्राथमिक उत्पादकता (NPP) प्रति इक्कड़े मणि क्षेत्रफल के बिए सही है।
- मरुस्थल < शीतोष्ण वन < उष्णकटिक्कधीय वन
  - मरुस्थल < उष्णकटिक्कधीय वन < शीतोष्ण वन
  - शीतोष्ण वन < उष्णकटिक्कधीय वन < मरुस्थल
  - उष्णकटिक्कधीय वन < शीतोष्ण वन < मरुस्थल
58. Which of the following is the correct increasing order for the daily net primary productivity (NPP) per unit leaf area in different ecosystems?
- Deserts < Temperate forests < Tropical forests
  - Deserts < Tropical forests < Temperate forests
  - Temperate forests < Tropical forests < Deserts
  - Tropical forests < Temperate forests < Deserts
59. मैकआर्थर और जिल्सन द्वारा प्रस्तावित दर्शायी लैवेंगोल का सतुलन आदर्श के अनुसार किसी दृष्टिपे पर अतिरिक्त की सख्त्य जिल्सन के मध्य सतुलन का प्रतिलिपित्व करती है।
- संसाधन उपभोग दर और घरमदान दर
  - जन्म दर और मृत्यु दर
  - इषनिवेशन दर और विलोपन दर
  - जाति उद्धारण दर और संकरण दर
60. The equilibrium model of island biogeography proposed by MacArthur and Wilson assumes that the number of species on an island represents a balance between
- resource consumption rate and predation rate.
  - birth rate and death rate.
  - colonization rate and extinction rate.
  - speciation rate and hybridization rate.
61. सुधारालिंग के द्वारा समीकरण  $\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)$  के अनुसार जनसंख्या वृद्धि करती, जहाँ  $\frac{dN}{dt}$  जनसंख्या वृद्धि दर,  $r$  अंतर वृद्धि दर,  $N$  जनसंख्या आकार और  $K$  पर्यावरण की तहस क्षमता है। इस समीकरण के अनुसार, वृद्धि दर इन में उल्लंघन है।
- $\frac{K}{2}$
  - $\frac{K}{2}$
  - $\frac{K}{4}$
  - $2K$
62. A population grows according to the logistic growth equation,  $\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)$  where  $\frac{dN}{dt}$  is the rate of population growth,  $r$  is the intrinsic rate of increase,  $N$  is population size and  $K$  is the carrying capacity of the environment. According to this equation, population growth rate is maximum at
- $\frac{K}{2}$
  - $K$
  - $\frac{K}{2}$
  - $2K$
63. समुद्री प्रायोदयितिक होतों के लिए उत्प्रवाही क्षेत्र की उपर्योगता क्या है?
- यह समुद्री जीवन के अवलोकन हेतु सागर में तापमान की एक स्थिति के लिए उत्तरदायी है।
  - यह गहरे होतों से पोककों को अन्यप्रीकरण हत्या करने समुद्री सतहों के लिए साते हैं, जिससे समुद्री उत्पादकता बढ़ती है।
  - यह सतह पर नृसंपदार्थों के उचित अपघटन हेतु अपराधों को अमुद सत से रातह पर लाकर परिसंचरण में महयोग करती है।
  - यह सतह पर नृसंपदार्थों के उचित अपघटन हेतु अपराधों को अमुद सत से रातह पर लाकर परिसंचरण में महयोग करती है।

59. What is the significance of upwelling zone for marine ecosystems?

1. It is responsible for uniformity of temperature in ocean to support the marine life.
2. It brings nutrients from deeper zones to relatively nutrient poor ocean surface thus increasing marine productivity.
3. It is responsible for uniform oxygenation of marine waters thus increasing marine productivity.
4. It helps in circulating decomposers from the bottom of ocean to surface for proper decomposition of dead material on the surface.

60. नीचे कॉलम A में तीन प्रकार के जोड़ीयुक्त जाति अन्तरिक्षियाँ की योजनाये प्रस्तुत की गई हैं और कुछ अन्तरिक्षियाँ के नाम कॉलम B में हैं।



कॉलम A		कॉलम B	
A		(i)	अभासी स्पर्धा
B		(ii)	व्युत्करण स्पर्धा
C		(iii)	डाइरेक्ट एगेन्सीसिभा
		(iv)	समुपयोजन स्पर्धा

प्रलेक योजना चित्रों में से कॉलम A और B के सभी अन्तरिक्षियाँ के लिए उत्तम मिलान का घटन करें।

1. A - (iii); B - (ii); C - (iv)
2. A - (iv); B - (ii); C - (iii)
3. A - (ii); B - (iv); C - (i)
4. A - (iii); B - (i); C - (ii)

60. Given below in Column A are schematic representations of three types of pairwise species interactions and the name of some interactions are in Column B.

3-A-H

Column A	Column B
A 	(i) Apparent competition
B 	(ii) Interference competition
C 	(iii) Direct amensalism
	(iv) Exploitation competition

Select the best match for interaction between column A & B in each schematic figure.

1. A - (iii); B - (ii); C - (iv)
2. A - (iv); B - (ii); C - (iii)
3. A - (ii); B - (iv); C - (i)
4. A - (iii); B - (i); C - (ii)

61. यह माला कि 2 विकल्पों के साथ एक विस्तृत हार्डी वेंटवर्गी सम्पादनस्था पर है। यदि उत्तम से एक समयुग्मजी जीनप्ररूप की अवृत्ति 0.64 है, तो उस आवादी में विषमयुग्मजों की अवृत्ति क्या होगी?

- |         |         |
|---------|---------|
| 1. 0.16 | 2. 0.20 |
| 3. 0.32 | 4. 0.36 |

62. Consider a single locus with 2 alleles which are at Hardy-Weinberg equilibrium. If the frequency of one of the homozygous genotypes is 0.64, what is the frequency of heterozygotes in the population?

- |         |         |
|---------|---------|
| 1. 0.16 | 2. 0.20 |
| 3. 0.32 | 4. 0.36 |

63. निम्नलिखित जन्तु संगमद प्रणालियों में से किसमें उपयुक्त संगम और प्रसरण के लिए स्पष्ट नरों की दुलाना में मादाओं में अधिक होती है?

1. एकसगमन
2. बहुप्रलौट्य

3. बहुपतित्व
4. अनुकूलिक एकसंगमन

62. Competition for mates and variance in fitness is higher among females than among males in which of the following animal mating systems?

1. Monogamy
2. Polygyny
3. Polyandry
4. Sequential monogamy

63. जिम्मलिखित में से कौन-सा एक लघु आवादियों में विकल्पी आवृत्तियों पर अल्पतम प्रभाव डालेगा?

1. अंत-प्रजनन
2. सदृचित्क समान
3. आनुवंशिक विचलन
4. बहिःप्रजनन

63. Which one of the following will have the least impact on allele frequencies in small populations?

1. Inbreeding
2. Random mating
3. Genetic drift
4. Outbreeding

64. नीचे दो प्रतिक शेली ( $P_1$ , तथा  $P_2$ ) तथा उनसे उत्पन्न  $F_1$  संतानों के लिए चिन्हक रेखाचित्र ही गढ़ हैं।



उपरोक्त चित्र में प्रस्तुत चिन्हक अधिकांशतः हैं


1. RFLP अथवा SSR
2. केवल SSR
3. SSR अथवा RAPD
4. केवल RAPD

64. Given below is a marker profile for two parental lines ( $P_1$  and  $P_2$ ) and their derived  $F_1$  progeny:

3-A-H

S/27 CISR/18—3AH-2A

$P_1$      $P_2$      $F_1$



The marker that is represented in the above figure is most likely to be

1. RFLP or SSR
2. SSR only
3. SSR or RAPD
4. RAPD only

65. DNA टीका अन्य उपलब्ध टीका पट्टपतियों की तुलना में अल्प सुविधाएं प्रदान करते हैं। DNA टीका से संबंधित जिम्मलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है?


1. प्रतिरक्षा अनुकूलिया DNA द्वारा प्रकृति प्रतिजल को निर्देशित करती है और शिदोक्त तथा कौशिक व्यवहित प्रतिरोधक क्षमता दोनों को ही प्रेरित करती है।
2. DNA टीका प्रतिजल के लम्बी अवधि की अभिव्यक्ति को प्रेरित करता है जिससे प्रतिरक्षा स्मृति के प्रेरण की संवृद्धि होती है।
3. DNA टीका विज्ञा प्रशीतन के लम्बी अवधि तक स्थिर व सामर्थ्यवान रह सकता है, जो अष्टडाइन और परिवहन की घुनातियों का नियोक्ता है।
4. DNA टीका का निर्माण इस उपाय से किया जा सकता है जो पोषिता को संक्रमित करने और तंत्रिकीय कौशिकाओं में प्रतिकृति निर्माण के लिए लिंगिन प्रतिजलों का वहन कर सकता है।

65. DNA vaccines offer several advantages over other existing vaccine approaches. Which one of the following statements related to DNA vaccine is NOT correct?

1. The immune response is directed to the antigen encoded by the DNA and able to induce both humoral and cell-mediated immunity.
2. DNA vaccine can induce prolonged expression of the antigen, enhancing the induction of immunological memory.

3. DNA vaccine could remain stable and potent for long time without refrigeration, eliminating the challenges of storage and transportation.
4. DNA vaccine construct can be engineered to carry several antigens to infect host and replicate in neuronal cells.

65 निम्नलिखित रपता जो एन्डोजेन रिसेप्टर लिंगमध्य चूहा के गिरीण हेतु J.ग्रिकलिप्त विषय दिया गया है:




SoH: site of homology; Goi: gene of interest

वृक्षा सुनिश्चित बतेगा कि ऊचुक्त पुनर्वाजिन शक्तिया सुमारू रूप से संपन्न हो गया है?

1. कोशिकाएं जीवित रहती हैं जब कैवल G418 की उपस्थिति में संवर्धित की जाती है।
2. कोशिकाएं जीवित रहती हैं जब G418 तदुपरान्त गेलिस्कलोविर की उपस्थिति में सदृप्ति दी जाती है।
3. कोशिकाएं मृत हो जाती हैं जब G418 की उपस्थिति में संवर्धित की जाती है।
4. कोशिकाएं जीवित रहती हैं जब G418 के साथ तदुपरान्त भी जाती हैं और मृत हो जाती है जब गेलिस्कलोविर के साथ संयोगित की जाती है।

66. The following cassette was designed to create estrogen receptor knock-out mice



SoH: site of homology; Goi: gene of interest

What would ensure that recombination has taken place?

1. Cells survive when cultured in presence of only G418
2. Cells survive when cultured in presence of G418 followed by ganciclovir

3. Cells die when cultured in presence of G418
4. Cells survive when cultured with G418 and die when cultured with ganciclovir

67. कम सान्दूता में प्रकालक सामान्यलया पोटीवों की विकृत नहीं बरते इसीलिए प्रोटीनों को उनके निर्दिष्ट अकार और सक्षम रूप में जिष्करण हेतु उपयोग किये जाते हैं। घोरनदा जो एक ई-गोल्ड डिलिलका ग्रोटील है, के प्रयोक्तव्य के लिए निम्नलिखित तुदप्रिकारण चयनितियों में से कौन सा एक अतिउपयुक्त होगा?

1. लवणरहित अ-आयनिक प्रकालक के अल्प सान्दूता का उपयोग।
2. आयनिक प्रकालक के अल्पसान्दूता का उपयोग।
3. अ-आयनिक प्रकालकसंयुक्त लवणीय धोत्र का उपयोग।
4. आयनिक प्रकालकसंयुक्त लवणीय धोत्र का उपयोग।

67. Detergents at low concentration generally do not denature proteins and are thus used for extracting proteins in their folded and active form. For isolation of 'Porins', an *E. coli* membrane protein, which one of the following purification approaches will be most appropriate?

1. Use of low concentration of non-ionic detergent without salt.
2. Use of low concentration of ionic detergent.
3. Use of salt solution containing non-ionic detergent.
4. Use of salt solution containing ionic detergent.

68. नीचे दीजित कश्लों में से सही उत्तर का चुनाव करें:

1. Chi square परीक्षण परामेट्रिक होता है।
2. नॉन-परामेट्रिक परीक्षण सामान्य वितरण को परिकल्पित करता है।
3. परामेट्रिक परीक्षण में पुस्तकालीय परिणामों को अधिपायष्ठी रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
4. परामेट्रिक परीक्षण की तुलना में नॉन-परामेट्रिक परीक्षण अधिक प्रभावशाली होता है।

68. Choose the correct answer from the statements indicated below.
- Chi square test is parametric.
  - Non-parametric test assumes normal distribution.
  - Results can be significantly affected by outliers in a parametric test.
  - Non-parametric test is more powerful as compared to parametric test.
69. पुनर्योजित DNA प्रीदेसोगिकों में उपयोग की गयी नियंत्रकारूपान्तरक इंजाइमों के संटर्मों में जिस्तसिखित कथनों में से कौन सा एक सही है?
- एन्डोन्यूक्लिएसेस एक अनुक्रम के छोर से एक बार में एक न्यूक्लियोटाइड को हटाता है।
  - प्रतिबंधन इंजाइमों के टाइप II वर्ग विलोमपदी अनुक्रमों की पहचान नहीं कर पाते।
  - मूर्ग के न्यूक्लिएस द्विग्रन्ती DNA मध्यवा RNA अन्तर्स्थ पर क्रिया करते हैं।
  - प्रतिबंधन इंजाइमों के टाइप II वर्ग सा तो धिपकने वाले मध्यवा कुद शिरायं पैदा करते हैं।
69. Which one of the following statements regarding restriction/modifying enzymes used in recombinant DNA technology is correct?
- Endonucleases remove nucleotides, one at a time, from the ends of a sequence.
  - Type II class of restriction enzymes do not recognise palindromic sequences.
  - Mung bean nuclease acts on double stranded DNA or RNA terminal.
  - Type II class of restriction enzymes can generate either "sticky" (staggered) or "blunt" ends.
70. एक कॉन्ट्रोकल राहगादरी में ऊंचन सोत के रूप में जिस्तसिखित में से कौन सा एक उपयोग किया जाता है?
- लैजर
  - इनोक्टोन किरणपुँज
  - मर्करी टीप
  - सेसर्स
70. Which one of the following is used as a source of excitation in a confocal microscope?
- Lasers
  - Electron beam
  - Mercury lamp
  - Masers
- भाग/PART -C**
71. निम्न कठनों  $\beta$ -आकार के बारे में है।
- सभी 20 अमीनो अम्लों में  $\beta$ -आकार बनाने की प्रवृत्ति होती है।
  - $\beta$ -आकार के रूप में  $\Psi_0$  नहीं पाए जा सकते हैं।
  - Pro-Gly अनुक्रम ट्रिताप्तूवक  $\beta$ -आकार का अनुमोदित करते हैं।
  - Asn-Gly  $\beta$ -प्रामाणी में,  $\Delta\phi$  में सकारात्मक  $\Phi$ ,  $\Psi$  संख्या हो सकता है।
- सभी सही कथनों के समुच्चय का चुनाव करें।
- B, D
  - A, C
  - A, D
  - C, D
71. Following are statements on  $\beta$ -turns:
- All the 20 coded amino acids have equal propensity to form  $\beta$ -turns.
  - Prn cannot occur in  $\beta$ -turns.
  - Pro-Gly sequence strongly favours  $\beta$ -turns.
  - In Asn-Gly  $\beta$ -turns, Asn can have positive  $\Phi$ ,  $\Psi$  values.
- Choose the combination with all correct statements
- B, D
  - A, C
  - A, D
  - C, D
72. DNA का गलतांक ( $T_m$ ) 47°C पाया गया तथा तापीय धारिता का  $T_m$  पर मापन 0.032 kJ पाया गया। एन्ट्रॉपी में घरिदर्दन होगा:
- $1 \times 10^{-3}$  kJ
  - $1 \times 10^{-4}$  kJ
  - $3 \times 10^{-2}$  kJ
  - $6 \times 10^{-2}$  kJ
72. DNA melting temperature ( $T_m$ ) was found to be 47°C and enthalpy measured at  $T_m$  was 0.032 kJ. The entropy change would be:
- $1 \times 10^{-3}$  kJ
  - $1 \times 10^{-4}$  kJ
  - $3 \times 10^{-2}$  kJ
  - $6 \times 10^{-2}$  kJ

73. निम्न बल्टी के उनके निकटतम ऊर्जा के साथ मिलायें:

(a)	साइडोंजन बन्ध	(i)	0.5 kcal
(b)	वाल्डर वाल बन्ध	(ii)	40 kcal
(c)	सहस्रोजी बन्ध	(iii)	80 kcal
(d)	आयनिक बन्ध	(iv)	3 kcal

1. (a) - (iv), (b) - (iii), (c) - (ii), (d) - (i)
2. (a) - (ii), (b) - (i), (c) - (iii), (d) - (iv)
3. (a) - (i), (b) - (ii), (c) - (ii), (d) - (iii)
4. (a) - (iv), (b) - (i), (c) - (iii), (d) - (ii)

73. Match the following bonds with their approximate energies:

(a)	Hydrogen bond	(i)	0.5 kcal
(b)	Van der Waals forces	(ii)	40 kcal
(c)	Covalent bond	(iii)	80 kcal
(d)	Ionic bond	(iv)	3 kcal

1. (a) - (iv), (b) - (iii), (c) - (ii), (d) - (i)
2. (a) - (ii), (b) - (i), (c) - (iii), (d) - (iv)
3. (a) - (i), (b) - (iv), (c) - (ii), (d) - (iii)
4. (a) - (iv), (b) - (i), (c) - (iii), (d) - (ii)

74. निम्न कुछ कथन ग्लाइकोलिसिस के बारे में हैं।
- A. ग्लाइकोलिसिस का वियन्ता प्राइमरी काइटेज के द्वारा नहीं होता है।
  - B. लेक्टेट ग्लाइकोलिसिस का एक उत्तम उत्पाद ही सकता है।
  - C. ग्लाइकोलिसिस आवायी विधि से कार्य नहीं कर सकता।
  - D. एस्ट्रोसाइट में, ATP उत्पादन के लिए ग्लाइकोलिसिस में द्वितीय कार्बनस्परण बा वैजन किया जा सकता है।
- उपरोक्त में से, दोनों गलत कथनों के समुच्चय का वर्णन करें।
1. A तथा B
  2. B तथा D
  3. C तथा D
  4. A तथा C

74. The following are some statements regarding glycolysis:
- A. Glycolysis is not regulated by pyruvate kinase.
  - B. Lactate can be an end product of glycolysis.

3-A-H


C. Glycolysis cannot function anaerobically.

D. In erythrocytes, the second site in glycolysis for ATP generation can be bypassed.


From the above, choose the combination with both INCORRECT statements:

1. A and B
2. B and D
3. C and D
4. A and C

75. एक रेजाइम के एक उत्क्रमणीय अप्रतिस्पर्धीत्वक अवधीन के लिए एक रेखांकित का चयन करें जिसमें उपरोक्त ऊर्जा  $K_m$  के निर्धारण के लिए बढ़ते हैं:





75. For a reversible non-competitive inhibition of an enzyme, choose the plot that you would use to determine  $K_m$ :



76. एक अन्वेषक ने एक GTP-जड़ित प्रोटीन को अभिव्यक्त किया जो कि गाल्जी उपकारण के वाह्य ज़िल्लों पर स्थापित होता है। प्रतिदीप्ति सूखमदशी में GTP-संकेत को देखने के पश्चात्

यह पाया गया कि GFP का स्थान परिवर्तित है (Fig A). GFP असिल्विटेट कोशिकाओं का पश्चापन एक नई खोजी गई औषधि से करने पर यह आल्टी को छोटे उटिकाओं में विभक्त कर देता है (Fig B).





लिम्नोफिल सूची सम्बंधित औषधि के लक्ष्य हैं

- A. डाइलिन मानप्रिट
- B. नायोसिन
- C. सुहमनसिकार
- D. डाइसर

सभी सही लक्ष्यों के समुच्चय का चुनाव करें:

1. केवल A, B तथा D
2. केवल B, तथा D
3. केवल A तथा C
4. केवल A

76. An investigator expresses a GFP-fused protein that localizes to the outer membrane of Golgi apparatus. Upon visualising GFP signal in the fluorescence microscope, it was noted that GFP is pericentrosomal in its localization (Fig A). Treatment of such GFP expressing cells with a newly identified drug disrupted the Golgi into small vesicles (Fig B).



Following is a list of potential targets of the drug:

- A. Dynein complex
- B. Myosin
- C. Microtubules
- D. Dicer

Choose the combination with all correct targets:

1. A, B and D only
2. B and D only
3. A and C only
4. A only

77. एक स्तनधारी कोशिका जो कि कोहिका चक्र के एक चरण में है, जब समेकन एक कोशिका जो कि कोशिका घड़ के एक अन्य चरण में है, से करने के पश्चात् निम्न अवलोकन किया गया :

A. G<sub>1</sub> चरण के कोशिका का समेकन S चरण में करने के उपरान्त G<sub>1</sub> केन्द्रक G<sub>1</sub> चरण में प्रवेश कर जाती है।

B. G<sub>1</sub> कोशिका का समेकन S चरण वाले कोशिका से करने के उपरान्त G<sub>1</sub> कोशिका S चरण में प्रवेश नहीं करती है।

C. G<sub>1</sub> कोशिका का समेकन G<sub>2</sub> कोशिका से करने के उपरान्त G<sub>1</sub> केन्द्रक G<sub>1</sub> चरण में प्रवेश कर जाती है।

D. एक S चरण की कोशिका का समेकन M चरण से करने के उपरान्त S चरण की कोशिका तत्काल समसूत्रण में प्रवेश कर जाती है।

सभी सही लक्ष्यों के समुच्चय का चयन करें।

1. A, B, C
2. A, C, D
3. B, C, D
4. A, B, D

77. Following observation was made when a mammalian cell in one phase of cell cycle was fused with a cell in another phase of cell cycle:

- A. Fusion of a cell in G<sub>1</sub> phase with S phase caused the G<sub>1</sub> nucleus to enter S phase.
- B. Upon fusion of a G<sub>2</sub> cell with an S phase cell, G<sub>2</sub> cell does not enter S phase.
- C. Upon fusion of a G<sub>1</sub> cell with G<sub>2</sub> cell, G<sub>1</sub> nucleus enters G<sub>2</sub> phase.
- D. Fusion of an S phase cell with a M phase causes the S phase cell to immediately enter mitosis.

Choose the combination with all correct statements.

1. A, B, C
2. A, C, D
3. B, C, D
4. A, B, D

78. एक प्रयोग के दौरान, अखण्डित क्रोमेटिन का विलगान किया गया रखे उसका पाचवत माइक्रोकाकल न्यूक्लिएज से पृथक नलिकाओं में 30 मिनट, 1 घण्टे, 2 घण्टे, तथा 4 घण्टे के लिए किया गया। तत्पश्चात् सभी नलिकाओं से DNA के परिशोधन के पश्चात् एग्रोरस जेल पर सूचकान्वत किया गया तथा इनका सदर्न हाइड्रोजैनेसन rRNA जीन के संपरीक्षक एवं सूचकान्वयन DNA के संपरीक्षक से किया गया। निम्न दिए गए संकेत गहनता के कौन से स्वरूप का दोनों संपरीक्षकों से सदर्न हाइड्रोजैनेसन करते के प्रणाल पाये जाने के सम्बन्धना हैं?
- बढ़ते हुए समय के क्रम से सूचकान्वयन संपरीक्षक की तुलना में rRNA जीन के संपरीक्षक के संकेतों में तीव्र दृष्टि पायी गयी।
  - बढ़ते हुए समय के क्रम से सूचकान्वयन संपरीक्षक की तुलना में rRNA जीन के संपरीक्षक के संकेतों में तीव्र हास पाया गया।
  - उत्पायन अवधि से निरपेक्ष दोनों संपरीक्षक एक समान संकेत गहनता वाली धारिया उत्पन्न करती।
  - माइक्रोकाकल न्यूक्लिएज का पश्चाधन तत्काल प्रभाव से DNA का अवक्षण कर देती, तदनुसार किसी भी जल्दी में हाइड्रोजैनेसन संकेत नहीं प्राप्त होगा।
79. निम्न में से कौन से प्रोटीन की माइटोकान्टिलम के अंतरांगिली रूपान पर पाये जाने की सबसे अधिक संश्वेतना है। एक प्रोटीन जो कि युक्त है
- एक N-टार्गेट आधारी लक्षित अनुक्रम एवं साथ में पौछे हाइड्रोफोबिक समाधित स्थानान्तरण छहराव अनुक्रम।
  - एक N-टार्गेट आधारी लक्षित अनुक्रम एवं पौछे विभाजन स्थान सूचक हाइड्रोफोबिक अनुक्रम जो कि पूरी स्थानान्तरण को नियन्त्रण करता है।
  - एक प्रोटीन, बहुल आतंरिक अनुक्रमों के साथ जो कि Tim 22 मिथ्या द्वारा पहचाना जाता है।
  - एक प्रोटीन, एक बाह्य क्षिणी स्थानान्तरण अनुक्रम युक्त एवं साथ में पौछे एक आधारी लक्षित अनुक्रम।
79. Which one of the following proteins is most likely to be found in the inter-membrane space of mitochondria? A protein containing
- an N-terminal matrix targeting sequence followed by hydrophobic stop-transfer anchor sequence
  - an N-terminal matrix targeting sequence followed by a cleavable hydrophobic sequence that blocks complete translocation
  - a protein with multiple internal sequences that are recognized by Tim 22 complex
  - a protein with an outer membrane localization sequence followed by a matrix targeting signal
80. सूक्ष्मलिका का एक अद्युत्तम  $2 \text{ } \mu\text{m}/\text{min}$  की गति से बढ़ता है। यह मानते हुए कि सूक्ष्मलिका के केन्द्रीकण प्रक्रिया दूर्घटना रहित है एवं द्युत्तिन की इकाई 3 nm के लम्ब में है। गति नियट द्युत्तिन के वित्तने इकाई बढ़ते हुए सूक्ष्मलिका से जुड़ते हैं?
- 400
  - 1600
  - 3200
  - 5200




3. aminoacylation of a special tRNA ( $tRNA^{secY}$ ) by serine tRNA synthetase with serine followed by further modification of the attached serine to selenocysteine followed by its transport to the ribosome by SelB
4. aminoacylation of a special tRNA ( $tRNA^{secY}$ ) by serine tRNA synthetase with selenocysteine followed by its transport to ribosome by SelB.
83. एक DNA के खण्ड का  $lacZ$  जीन के क्रियात्मक स्थान पर प्रतिरूपण किया गया तथा पुनर्योग्य प्लाज्मिड को *E. coli* के  $lacZ^-$  नस्त में प्रवेश कराया गया एवं X-gal मिश्रित माध्यम में फैलाया गया। कालोनियों (आबादी) ने नीला रंग दिखाया। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है?
- प्रतिरूपित DNA खण्ड को विशिष्ट होने की अवश्यकता नहीं है क्योंकि किसी भी DNA का  $lacZ$  में प्रतिरूपण बाच्चे दांच के विद्युरण का कारण होगी तथा X-gal मिश्रित प्लेट पर नीले रंग की उत्पत्ति करेगी।
  - प्रतिरूपित DNA खण्ड श्रेणी 1 का अव्यक्तैक हो सकता है जिसका *E. coli* में पूर्ववर्ती  $lacZ$  अनुलेख से निष्कासन के उपरान्त परिपक्व  $lacZ$  mRNA बनता है जो कि क्रियात्मक  $lacZ$  जीडिजन का उत्पादन कर सकता है।
  - प्रतिरूपित अनुक्रम  $lacY$  का अनुक्रम ही सकता है जो कि प्राकृतिक रूप से *E. coli* में  $lac$  प्रचालक का एक हिस्सा है।
  - प्रतिरूपित अनुक्रम एक प्रति-अंतक अनुक्रम हो सकता है जो कि पूरी लंबाई के  $lacZ$  के अनुलेखन को अनुमोदित करता है।
83. A DNA segment was cloned into the active site region of  $lacZ$  gene and the recombinant plasmid introduced into  $lacZ^-$  strain of *E. coli* and plated on a medium containing X-gal. The colonies showed blue color. Which one of the following statements is correct?
1. The nature of the cloned DNA segment need not be special as cloning of any DNA in  $lacZ$  will result in disruption of its reading frame and production of blue colour on X-gal plates.
2. The cloned DNA segment could be a Group I intron whose removal from the precursor  $lacZ$  transcript in *E. coli* results in production of mature  $lacZ$  mRNA which can then produce active LacZ protein.
3. The cloned sequence is likely to be  $lacY$  sequence which is naturally a part of  $lac$  operon in *E. coli*.
4. The cloned sequence is likely to be an anti-terminator sequence which allows full length transcription of  $lacZ$ .
84. एक यीस्ट प्रतिरेटक जीन में एक अव्यक्तैक के सम्बन्ध स्थल प्रधाना विंटु में एक उत्परिवर्तन है (UACUAAC से UACA'AAC). इस उत्परिवर्तन के अवरोध करने के लिए snRNAs के विंटु उत्परिवर्तितों के एक सम्बन्ध को उत्परिवर्तित नस्त में प्रवेश कराया गया। अवरोधक में संकेतन निष्पाक्ति में विन्टु उत्परिवर्तन है।
- $U_1$  snRNA
  - $U_2$  snRNA
  - RNase P
  - $U_6$  snRNA
84. An intron in a yeast reporter gene carries a mutation in the splice site branch point (UACUAAC to UACA'AAC). To suppress the mutation, a library of point mutants of snRNAs was introduced into the mutant strain. The suppressor is most likely to have a point mutation in:
- $U_1$  snRNA
  - $U_2$  snRNA
  - RNase P
  - $U_6$  snRNA
85. एक शोधकर्ता ने नई खोजी गयी जीन में संवृद्धिकर अनुक्रम को पहचानता चाहा। भीचे कुछ प्रतिवेदक (reporter) रचना के उपयुक्त क्षेत्रों को दिखाया गया है जो कि शोधकर्ता ने संवृद्धिकर अनुक्रम को पहचानने के लिए निर्मित किया।



उपरोक्त में से कौन सी एक रचना का उपयोग संवृद्धिकर को पहचानने में किया जा सकता है?

1. केवल A
2. केवल B
3. A तथा C दोनों
4. केवल C

85. A researcher wanted to identify the enhancer sequences of a newly discovered gene. Shown below are the relevant regions of some of the reporter constructs the researcher designed to identify the enhancer.



Which of the above constructs can be used to identify the enhancer?

1. A only
2. B only
3. Both A and C
4. C only

86. एक अनुवांशिक परीक्षण में, यीस्ट DNA के अनियमित तरीके से तोड़े गये टुकड़ों को एक जीवाणु (वैकटोरिया) के प्लाजिमड में प्रतिकृपित किया गया जिसमें कि जीन 'X' शिहित है, जो कि यीस्ट के न्यूनतम माध्यम में जीवित रहने के लिए आवश्यक है। पूनर्योगज प्लाजिमड का उपयोग एक यीस्ट नस्ल में रूपातरण के लिए किया गया जो कि पूनर्योजन में आक्षम है एवं 'X' जीन रहित है। रूपातरित, जो कि न्यूनतम माध्यम में जीवित रह सकती है एवं कानूनिया-

बना सकती है। उनमें आवश्यक रूप से होना चाहिए :

1. यीस्ट का सूत्रान्द्रीय अनुक्रम जो कि रूपातरण के पश्चात प्लाजिमड के अंछड़ता को सुनिश्चित करता है।
2. आवश्यक जीन का संवृद्धिकर जो कि रूपातरित नस्ल में अनुपस्थित है।
3. जीवाणुओं के प्रतिकृतियम उद्भव के समरूप अनुक्रम।
4. यीस्ट स्वायत्त प्रतिकृतियम अनुक्रम।

86. In a genetic assay, randomly generated fragments of yeast DNA were cloned into a bacterial plasmid containing gene 'X' essential for yeast viability on minimal media. The recombinant plasmid was used to transform a yeast strain deficient in recombination and lacking 'X' gene. Transformants, which survive on minimal media and form colonies should essentially have:

1. Yeast centromeric sequence which ensures integrity of the plasmid after transformation.
2. Enhancers for the essential gene missing in the transformed strain.
3. A sequence similar to bacterial origin of replication
4. Yeast autonomous replicating sequence.

87. एक द्रविगुणित जीव में पूनर्योजन के बारे में निम्न कथन बनायी गयीं:

A. एक जोड़ी विस्थल के लिए पूनर्योजन को जनक एवं वशज के जीन प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया से पहचाना जा सकता है।

B. पूनर्योजन आवृत्ति 0.5 से ऊपरी लहरी होती है भले ही विस्थल के बीच बीच अधिकतम दूरी 50cm हो सकती है।

C. पूनर्योजन एक व्युत्क्रम प्रक्रिया है। यद्यपि एक अव्युत्क्रम विविस्य जीन रूपातरण का कारण बन सकती है।

D. कभी-कभी असमजात पूनर्योजन होती है एवं यह गुणसूत्रों के पुनर्दिन्यास के मूल स्रोत का कार्य करती है।

सभी सही कथनों के समुच्चय को चुनें।

1. A, B, C
2. A, B, D

3. B, C, D
4. A, C, D

87. Following statements have been made about recombination in a diploid organism:
- Recombination could be identified by genotyping parents and offsprings for a pair of loci.
  - Recombination frequency does not exceed 0.5, and therefore, 50cM would be the maximum distance between two loci.
  - Recombination is a reciprocal process. However, a non-reciprocal exchange may cause gene conversion.
  - Occasionally non-homologous recombination happens and thus functions as a source of chromosomal rearrangement. Select the combination with all correct statements.
1. A, B, C  
2. A, B, D  
3. B, C, D  
4. A, C, D

88. जीवाणुओं पर्याप्ति के प्रतिरक्षा तंत्र से बचनिकल्पों के लिए जिल्ज-जिल्ज रणनीतियों को अपनाती है। विशेषज्ञ प्रक्रियाएं एवं परसोंपरी के प्रतिरक्षा तंत्र वे विशेष जीवाणुओं की सम्भावनाओं नीचे दर्शाये गये हैं। सभी सही विकल्पों को दर्शाने वाले विवरण तत्त्व चुनाव करें।

पर्याप्ति प्रतिरक्षा तंत्र	पर्याप्ति के प्रतिरक्षा तंत्र के विशेष जीवाणुओं की रणनीतियाँ
a. अद्वाकोशिकरण	W जीवाणु के पृष्ठ आवेश में परिवर्तन जो कि इसे अधिक ध्वनिमक बनाता है।
b. IgG जैसे प्रतिरक्षियों का लिंगांचयन	X संपूर्णीय प्रतिसिकरण, जो कि क्लोवर्सिलेस्ट्रा न्यूक्लियन को
c. प्रतिरक्षीकृत आइलोफ्लीकरण	Y धुमनशील प्रोटीनों का विनाशन, जैसे कि स्ट्राफाइलोकाकर आउटिथस का प्रोटीन।

जीवाणुओं की प्रटाइप	Z	Cla तथा CSa को विभिन्न क्रमों के लिए इन्हारेज का वर्णन
---------------------	---	--

88. Bacteria adopt different strategies to evade host defense mechanisms. From the lists of various different mechanisms and bacterial strategies against host defense given below, select the option representing all correct pairing:

Host defense mechanism	Bacterial strategies against host defense
a. Phagocytosis	W. Change of bacterial surface charge, making it more positive
b. Release antibodies, like IgG	X. Capsular polysaccharides, such as that of <i>Klebsiella pneumoniae</i>
c. Antibody-mediated agglutination	Y. Release of soluble proteins like protein A of <i>Staphylococcus aureus</i>
d. Anti-microbial peptides	Z. Secretion of elastase to inactivate C3a and C5a

1. a - W; b - X; c - Y; d - Z  
2. a - X; b - Y; c - Z; d - W  
3. a - Z; b - Y; c - X; d - W  
4. a - Y; b - W; c - Z; d - X

89. जीवाणुओं का रसोअनुचरण प्रतिक्रिया किस्टिल्स-काइजल-सबट्रॉ ग्राहियों द्वारा चालित होता है जो कि द्रविघटकीय रांकेतन पथ को सक्रिय करता है एवं रसोअनुचरण ग्राहियों को संशोधन बनाता है जिससे वह क्षरज्ज्वर संचालक का नियंत्रण कर सके। जब जीवाणु लुभायते चर्टर्य

के तरफ बढ़ता है जो वे कशाम और घड़ी की सुई के लिए दिशा में घुमाते हुए मसृण प्लावन उत्पन्न करते हैं। जबकि विकर्षक वस्तु से दूर जासे समय से कशाम और घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हुए अधिक लुढ़काव उत्पन्न करते हैं। विस्तारित कौन सा अभिभावण रसोअनुष्टुप्त ग्राही के बारे में सही नहीं है।

1. ग्राहियां दवितयों परिणिल्ली फोटोन होती हैं जो कि प्रदूषण लिल्ले के बाहर लिशिए लुभावने एवं विकर्षक पदार्थों से बंधता है।
  2. ग्राही का कोशिका द्रव्यों पुच्छ एक हिस्टीडिन चाइनेज ChcA के साथ मल्कूलक फोटोन Chew के द्वारा स्थायी रूप से संबद्ध होता है।
  3. ग्राही एवं इनसे संबंधित सभी फोटोन कोशिका के एक सिरे पर प्रक्षिप्त होते हैं।
  4. लकड़ी की से बंधने पर ग्राही कि किशोरीलता नहीं है जबकि विकर्षक वस्तु से बंधने पर किशोरीलता कम हो जाती है।
89. Bacterial chemotaxis response is mediated by histidine-kinase-associated receptors that activate a two-component signalling pathway which enables chemotaxis receptors to control the flagellar motors. When bacteria move towards attractant, they produce smooth swimming by rotating flagella counter-clockwise, whereas when bacteria move away from repellent, they produce increased tumbling by rotating flagella clockwise. Which of the following characteristics regarding chemotaxis receptor is NOT true?
1. The receptors are dimeric transmembrane proteins that bind specific attractants and repellents on the outside of the plasma membrane.
  2. The cytoplasmic tail of the receptor is stably associated with a histidine kinase CheA via an adapter protein Chew.
  3. The receptor and its associated proteins are all clustered at one end of the cell.
  4. The binding of an attractant increases the activity of the receptor whereas binding of a repellent decreases the activity.

90. नीचे कोशिकावाह्य आधारी फोटोनों के एक जुड़ी (कॉलम A) डेनके कार्यानुभाव अधिकारण (कॉलम B) के साथ दिया गया है।

कॉलम A		कॉलम B	
A. कोनेक्शन	(i)	प्रमुख अतिस्तरी कोशिका फोटोन जो कि श्वेत रक्त कोशिका इन्दीग्लिस एवं इन्यूनोलोब्यूलिन। (ii)	समूह के सदस्यी द्वारा पहचाना जाता है।
B. नमूनों के स्मृद्धि	(ii)	कोशिका पृष्ठ कार्बोहाइड्रेट बन्धनघरणी फोटोन जो कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी कोशिका-कोशिका अभिन्न अन्योन्यक्रिया की एकत्र प्रवाह गंभीर स्थानित करता है।	
C. ICAM	(iii)	चम्पोनिम-द्वारा पारिणिल्ली फोटोन जो कि अतरास संधि का प्रमुख घटक है इनका एक अविच्छिन्न जलाय ब्रायाल डेनके में उपयोग।	
D. सेलेक्टिन	(iv)	यह पादपों में अत्मकोशिकीय संधियों की रक्त क्षेत्रों हैं जो कि सेलग्रन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को व्यापक रूप से जोड़ता है।	

नीचे दिया गया कौन सा एक सही जोड़ा है:

1. A - i; B - iv; C - iii; D - ii
2. A - ii; B - iii; C - iv; D - i
3. A - iii; B - iv; C - i; D - ii
4. A - iv; B - i; C - ii; D - iii


90. Following are a list of extracellular matrix proteins (Column A) along with their functional characteristics (Column B).

Column A	Column B
A. Connexin	(i) The chief endothelial cell proteins that are recognized by the white blood cell integrins and member of immunoglobulin (Ig) superfamily.
B. Plasma membrane	(ii) Cell surface carbohydrate binding proteins that mediate a variety of transient cell-cell adhesion interactions in the bloodstream.
C. ICAM	(iii) Four-pass transmembrane protein which is the major constituent of gap junctions in forming a continuous aqueous channel.
D. Selectin	(iv) It is the only class of intercellular junctions in plants that directly connect the cytoplasm of adjacent cells.

Which one of the following is the correct match?

1. A - i; B - iv; C - iii; D - ii
2. A - ii; B - iii; C - iv; D - i
3. A - iii; B - iv; C - i; D - ii
4. A - iv; B - i; C - ii; D - iii


91. वैसर कोशिकाओं को एक प्रत्याशित क्रीमर गंधी औषधि से उपचार के उपरान्त किये गये डेस्टर्न क्लास विश्लेषण को नीचे दर्शाया गया है।



लिना प्राणाये ब्रह्मणी गयी;

- A. औषधि समदत् कोशिकाओं के वधन को G<sub>1</sub> घर पर रोक दिया है।
  - B. औषधि JAK-STAT संकेतन पथ को लक्ष्य बनाया है।
  - C. औषधि कोशिकाओं में कार्यक्रम कोशिका मृत्यु का जिद्देशा करता है।
  - D. औषधि निश्चित कार्यक्रम कोशिका मृत्यु वाह्य अथवा सूक्ष्माणिकीय स्वतंत्र पथ द्वारा घोलित होता है।
- निम्न में से कौन सा पथ नुच्छय सही है?
1. केपल फिलथरा
  2. A, B तथा C
  3. केपल फिलथरा और D
  4. B, C तथा D

91. A western blot analysis after treating cancer cells with a prospective anti-cancer drug is shown below:



The following assumptions were made:

- A. The drug may have arrested the growth of cells at the G<sub>1</sub> phase.
- B. The drug targeted the JAK-STAT signalling pathway.
- C. The drug led to apoptosis of the cells.
- D. Drug-induced apoptosis was through the extrinsic or mitochondrial-independent pathway.

Which one of the following combination is correct?

1. Only B and D
2. A, B and C
3. Only A and B
4. B, C and D

92. निम्नांकित कोन सा एक कथन बलोंनी वरण मध्यारण के बारे में सही नहीं है।
- परिषक्त B निन्फोसाइट कोशिका पृष्ठ पर Ig ग्राहिका धारण करती है एवं एकल B कोशिका पर सारे ग्राहिकी में प्रतिजन के लिए परिवर्तनशील विशेषता होती है।
  - प्रतिजन द्वारा उद्दीपन के पश्चात् B कोशिका परिपक्व होता है, तरीकावत भेंगी में स्थानान्तरित होता है एवं प्रतिकृत होता है। इसके प्रतिरूपित वश उन्हीं ग्राहिकी का धारण करते हैं जैसे कि पैतृक B कोशिकाएँ एवं समान विशेषता वाले प्रतिजन सावित करते हैं।
  - प्रतिरक्षा अनुक्रिया के पश्चात् याही पारित अधिकतम् B कोशिकाएँ पारदोषी गे वच्ची रह जाती हैं एवं परिषक्त दृष्टिय अनुक्रिया के लिए स्मृति कोशिका के जैसा कार्य करते हैं।
  - आत्म प्रतिजन के लिए ग्राहियों से सुहृत् B कोशिकाएँ भूमीभ विकास के समय विलोपित कर दिये जाते हैं।
92. Which one of the following statements regarding clonal selection hypothesis is NOT CORRECT?
- Mature B lymphocytes bear Ig receptors on their cell surface and all receptors on a single B cell have variable specificity for antigen.
  - On antigen stimulation, B cell matures, migrates to lymphoid organs and replicates. Its clonal descendants bear the same receptor as parental B cell and secrete antibodies with identical specificity.
  - After immune response, more B cells bearing receptors will remain in the host and act as memory cells for mounting enhanced secondary response.
  - B cells with receptors for self antigens are deleted during embryonic development.
93. संवेदनशील व्यक्तियों को अलग-अलग रोगाणु A एवं रोगाणु B से संक्रमित किया गया। रोगाणु A का रोगोदृष्टवन काल बहुत छोटा है एवं स्मृति कोशिकाओं के सक्रिय होने तक रोग के लक्षण
- पहले ही देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ रोगाणु B का रोगोदृष्टवन काल दीर्घ है जिससे कि स्मृति कोशिकाएँ सक्रिय होने के पश्चात् प्रतिजिया दिखाने लगती है। निम्नांकित जौल सी टीकाकरण पदधारि दोनों रोगाणु A तथा B के लिए उपयुक्त होगी।
- A तथा B के विस्तृध पुनरावर्ती टीकाकरण जिससे कि प्रभावहीन करने वाले प्रतिरक्षी की मात्रा उच्च बनाये रखा जा सके।
  - A के विस्तृध पुनरावर्ती टीकाकरण एवं रोगाणु B के टीका की एकल सुई एवं रोगाणु B के विस्तृध पुनरावर्ती टीकाकरण जिससे कि प्रभावहीन करने वाले प्रतिरक्षी की मात्रा उच्च बनाये रखा जा सके।
  - रोगाणु A के टीका की एकल सुई एवं रोगाणु B के विस्तृध पुनरावर्ती टीकाकरण जिससे कि प्रभावहीन करने वाले प्रतिरक्षी की मात्रा उच्च बनाये रखा जा सके।
  - रोगाणु A तथा B टीके की एकल सुई जिससे कि स्मृति कोशिकाएँ इत्तोद प्रतिरक्षी की उच्च मात्रा निर्माण करके प्रतिक्रिया कर सके।
93. Susceptible individuals were infected with pathogen A and pathogen B separately. Pathogen A has a very short incubation period and disease symptoms are already underway by the time memory cells are activated. Pathogen B on the other hand has a long incubation period which allows the memory cells to be activated and respond. Which one of the following will be the most appropriate vaccination strategy against both pathogens A and B?
- Repeated vaccination against both A and B for maintaining high levels of neutralizing antibodies.
  - Repeated vaccination against A and a single injection of pathogen B vaccine for maintaining high levels of neutralizing antibodies.
  - Single injection of pathogen A vaccine and repeated vaccination against pathogen B for maintaining high levels of neutralizing antibodies.
  - Single injection of both pathogens A and B vaccine so that memory cells can respond by producing high levels of serum antibodies.


94. मात्रव शुक्राणु को एक अण्डाणु जिसमें अंडियाशील ओवोहेट्रिन है, से लिखेति जगता गया। उन युगों के समेकल के प्रीप्रेश और जिम्म राशावनाएं अधिकाय रखे रखती हैं।
- शुक्राणु अण्डाणु को लिखेति नहीं करता।
  - शुक्राणु पारदर्शी अडावस्त्र से बंधेगा एवं शट्टन बरेगा परन्तु अण्डाणु के डिल्ली से नहीं बुझेगा।
  - ZP2 का क्षेत्र वल्फ्कीय क्षेत्रिका ज्ञानिएँ भी नहीं होती।
  - ओवोहेट्रिन की मनुपस्थिति में ZP2 डिल्ली सूक्ष्मांकुर के CD9 प्रोटीन शुक्राणु जिल्ली के प्रोटोनी से अन्तर्व्यक्तिया नहीं कर सकता।
  - बस्तुशुक्राणुता की बहुतायत ही सकती है। कथों का कौन सा रामुच्चय उपरोक्त पद्धति ता परिणाम दर्शाता है?
- A तथा B
  - C तथा D
  - C तथा E
  - B तथा C
95. Human sperms are allowed to fertilize ova having non-functional ovastacin. The following possibilities may be of significance in the fusion of these gametes.
- The sperms will not fertilize ova.
  - The sperms will bind and penetrate the zona pellucida but will not be able to fuse with ovum membrane.
  - ZP2 will not be clipped by cortical granule process.
  - CD9 protein of egg membrane microvilli will not be able to interact with sperm membrane proteins in the absence of ovastacin.
  - Polyseparity may occur frequently.
- Which combination of statements represent the outcome of the above event?
- A and B
  - C and E
  - C and D
  - B and C
96. N-कैथरिन का अस्थायी अधिक्यक्ति इतनधार्मी धूर्णों के प्रारंभिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। तदनुसार, N-कैथरिन के बारे में जिम्माकित में से कौन गा एक बायन सही है?
- N-कैथरिन के प्रतिरक्षी तो गण्डोत्क कोशिकाओं के प्रतिकरण के तुरन्त पहले व्यवेश करते पर गह उपायिति के लिम्पिण में महद करेगा।
  - धनीकरण के तुरन्त पहले N-कैथरिन की उपस्थिति गण्डिका औ लिम्पिण एवं पाद कंकाल के विकास को सुनाम करेगा।
  - यदि अधिकायिक कोशिकाओं को प्रोयोगिक रूप से N-कैथरिन के अभिव्यक्ति के लिए तैयार किया जाए तो लंबिका तंत्र एवं चार्ग के लीच की सीधा कर लिम्पिण उद्यित होगा होगा।
  - तरिकीय एवं अधिक्षिका व्यापार कोशिकाओं के विलगाव के दौरान N-कैथरिन जी अधिक्यक्ति अनावश्यक होती है।
97. Temporal expression of N-cadherin is extremely important during early development of the mammalian embryos. Accordingly, which one of the following statements about N-cadherin is true?
- Injection of N-cadherin antibodies just prior to condensation of mesenchymal cells will aid cartilage formation.
  - Presence of N-cadherin just prior to condensation will facilitate nodule formation and development of the limb skeleton.
  - The border between the nervous system and skin will form properly only if epidermal cells are experimentally made to express N-cadherin.
  - Expression of N-cadherin is redundant during separation of neural and epidermal precursor cells.
98. C एलिगेन्ट के युगमज धूर्णीय विकास दर्शाते हैं। जब दो इन हुए कोरक्यांडो (P1 तथा A3) को प्रारंभिक तरीके से अलग किया जाए तो जिम्माकित परिणाम संभवित है।
- विलगाव की परिस्थिति में P1 कोशिका उन सभी कोशिकाओं का लिम्पिण करेगी जिन्हें वह सामान्यतया बनाती है, जोकि स्वतंत्र विनिर्देशन दर्शाता है।
  - विलगाव जी परिस्थिति में P1 कोशिका उन सभी कोशिकाओं का लिम्पिण करेगी जिन्हें वह सामान्यतया बनाती है, जोकि परिवर्त्यात्मक विनिर्देशन दर्शाता है।

6. विलगात्र की परिस्थिति में A/B कोशिका उन कोशिकाएँ पकाती हैं एक छोटे से अंश का विभाग करकी जिसने वह सामान्यतया बनाती है, जो कि प्रतिबन्धात्मक विभिन्निशण दर्शाता है।
7. विलगात्र की परिस्थिति में (i) कोशिका उन कोशिकाएँ पकाती हैं एक छोटे से अंश का विभाग करकी जिसने वह सामान्यतया बनाती है, जो कि स्वतंत्र विनिर्देशण दर्शाता है। उपरोक्त कथनों का बोन सा समुच्चय सही है?
1. A तथा C  
2. B तथा D  
3. B तथा C  
4. A तथा D
96. The zygote of *C. elegans* exhibits rotational cleavage. When the first two blastomeres formed (P1 and AB) are experimentally separated, the following outcomes may be possible:
- The P1 cell in isolation generates all the cells it would normally make, showing autonomous specification.
  - The P1 cell in isolation generates all the cells it would normally make, showing conditional specification.
  - The AB cell in isolation generates a small fraction of cell types it would normally make, showing conditional specification.
  - The AB cell in isolation generates a small fraction of cell types it would normally make, showing autonomous specification.
- Which one of the above combination of statements is true?
1. A and C  
2. B and C  
3. B and D  
4. A and D
97. नीचे दिए गए कुछ कथनों पुनर्जनन में शांखिल हैं।
- A. स्तनधारी घृणा में पुनर्जनन के प्रकार के अभिव्यक्ति को प्रतिप्रति पुनर्जनन भाला जाता है।
- B. कृष कोशिकाओं से रोस तक्तु को पुनर्वृद्धि गूल कोशिका द्वारा पुनर्जनन का इष्टांत प्रेष करता है।
- C. मौजूद कृतकों भी पुनरावृत्तिकरण द्वारा नये अल्पवृद्धि से होने वाले पुनर्जनन को आपरेटेविमस के नाम से जाना जाता है।
- D. प्रथमक सरलापां जो कि मिहिवेटन प्रक्रिया से प्रमुखत बनाती है, तत्पश्चात् पुनर्विभादन प्रक्रिया से तुल्य हुए सरलापा को बनाती है, एवं इमार्गित्व के नाम से जाना जाता है। शारीर कथनों के प्रबो उपयुक्त समझौत का उद्योग करें।
1. केवल 1  
2. केवल 1 तथा 2  
3. केवल 1 व 3 तथा 4  
4. A, B, C तथा 1
98. नीचे दिए गए कुछ कथनों पीढ़ी से असरजनन के लिए में हैं।
- A. असरजनन का उपयोग पीढ़ी में शंकर औज को कई पीढ़ीयों तक बढ़ाव रखने के काम में नहीं किया जा सकता।
- B. बीजाणु-उदायिती असरजनन में मातृक बीनप्रस्प बना रहता है।

- C. युग्मकोद्भिटी असंगजनन के दौरान अधेसूत्रण की एक प्रक्रिया होती है जिसे अपअधेसूत्रण भी कहा जाता है।
- D. द्विगुणित बीजाणुता में, गुणवीजाणु मात्र कोशिका का अधेसूत्रण निरस्त हो जाता है, फलस्थरूप दो छोटे नहीं किए हुए बीजाणु बनते हैं जिसमें से एक मात्र युग्मकोद्भिट का निर्माण करता है।
- निम्नालिखित कौन सा एक समृद्धय सही बनते हैं?
1. A. तथा B
  2. A. तथा C
  3. B. तथा C
  4. B. तथा D

98. Following are certain statements regarding apomixis in plants:
- A. Apomixis cannot be used to maintain hybrid vigor over many generations in plants.
  - B. In sporophytic apomixis maternal genotype is maintained.
  - C. There is an event of meiosis during gametophytic apomixis and is also referred as apomeiosis.
  - D. In diplospory, meiosis of the megasporangium mother cell is aborted, resulting in two unreduced spores, out of which one forms the female gametophyte.
- Which one of the following combinations is correct?
1. A and B
  2. A and C
  3. B and C
  4. B and D


99.



- उपरोक्त प्रयोग से निम्न धारणाएँ ज्ञानार्थ गए:
- A. माध्यम A में bFGF तथा PDGF निहित है
  - B. माध्यम B में रेटिनोइक अम्ल निहित है

- C. माध्यम B में संवृद्धि कोशिकाएँ माध्यम के नियाय से फहम ही क्रियाशील तनियका कोशिकाएँ बनाने के लिए निर्धारित हैं।
- निम्नालिखित कौन सा समृद्धय सही बनते हैं?
1. कवल A तथा B
  2. A, B तथा C
  3. कवल B तथा C
  4. कवल A तथा C

99.



The following assumptions were derived from the above experiment:

- A. Medium A contained bFGF and PDGF.
- B. Medium B contained retinoic acid.
- C. Cells cultured in Medium B were determined to become functional neurons prior to addition of the medium.

Which one of the following combinations represents correct statements?

1. A and B only
2. A, B and C
3. B and C only
4. A and C only

100. राहजीविया के साथ चिंचो (तम्गुम) के सहजीवी संबंध के बारे में निम्न कथन व्याप्ति गयी:
- A. नोड D (nodD) एक नियंत्रक जीन है।
  - B. नोड (Nod) कारके लिपोकाइटिन ओलिगोसकराइट्स हैं।
  - C. नोड (Nod) कारकों में प्रमुखतया 0-1 → 4 बट्टा N-एसिटिल-D-ग्लूकोसामाइन आधार होता है।

100. नोड (Nod) कार्बो के लिए जिम्मेदार सारीया व्यक्तिगत वाहन शक्ति-बद्ध (LysM प्रोटीन गेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं)। जिसका विकास कौन सा समुदाय सभी अपनी की दर्शाती है?
- A. B तथा C
  - B. C तथा D
  - C. B, C तथा D
  - D. A, B तथा C
101. Following statements were made with respect to symbiotic association of rhizobia with legumes:
- nodD* is a regulatory gene.
  - Nod factors are lipochitin-oligosaccharides.
  - Nod factors predominantly have  $\alpha-1 \rightarrow 4$  linked N-acetyl-D-glucosamine backbone.
  - Receptors for Nod factors are protein kinases with extracellular sugar-binding Lys M domain.
- Which one of the following combinations represents all correct statements?
- A, B, and C
  - B, C and D
  - A, C and D
  - A, B and D
102. एक दोवै-रोगण तंत्र में जीन संकेतनों एवं रोग प्रतिक्रिया प्रकारों का एक ट्रिविंग गणित जहाँ कि जीन के लिए जीन मिहांत कर्त्ता करते हैं, नीचे दर्शाया गया है:
- |  |                                    |                     |
|--|------------------------------------|---------------------|
| संकेतन में संकेतनात्मक व्यक्तिगत संकेतन के असंकेतनकर्ता के जीन | पोधों में पतिरोधक वा संवेदनशील जीन |                     |
| असंकेतनकर्ता के जीन  | प्रतिरोधी (प्रतिरोधक)              | संवेदनशील (प्रवाही) |
|  | अप्रवाही                           | अप्रवाही            |
| जीन के असंकेतनकर्ता के जीन                                     | AR                                 | ar                  |
|  | ar                                 | ar                  |
- उपरोक्त जीनप्राइंटों के लिए में निम्न कथन वर्णयें गयी।
- AR जीनचारूप में असंकेतन (प्रतिरोधी) अधिक्रियाएं पायी जाती हैं।
  - ar जीनचारूप में संकेत (संवेदनशील) अधिक्रियाएं पायी जाती हैं।
  - AR जीनचारूप में संकेत (संवेदनशील) अधिक्रियाएं पायी जाती हैं।
  - ar जीनचारूप में असंकेतन (प्रवाही) अधिक्रियाएं पायी जाती हैं।
103. A quadratic check of gene combinations and disease reaction types in a host-pathogen system where the gene-for-gene concept operates is represented below:
- | Virulence or avirulence genes in the pathogen | Resistance or susceptibility genes in the plant |                              |
|---|---|------------------------------|
|   | R (resistant)<br>dominant                       | r (susceptible)<br>recessive |
| A (avirulent)<br>dominant                     | AR  | Ar                           |
| a (virulent)<br>recessive                     | ar  | ar                           |
- The following statements were made about the above genotypes:
- AR genotype had incompatible (resistant) reactions.
  - Ar genotype had compatible (susceptible) reactions.
  - ar genotype had compatible (susceptible) reactions.
  - ar genotype had incompatible (resistant) reactions.
- Choose the combination with all correct statements.
- A, B and D
  - B, C and D
  - A, B and C
  - A, C and D
104. सबलूप परिविहार में उवाह एवं गेहू़ के क्रियात्मक सापेदण्डों के अध्ययन के दौरान निम्न अवश्योकता किया गया:
- नवार रूपिस्को (RUMPSK) तुलनात्मक रूप से गेहू़ की लुक्काम ने CO<sub>2</sub> के प्रति अधिक लग्जर्स प्रदर्शित करता है।
  - मिथीरित प्रकाशसंश्लेषक प्रवाह का प्रकाश परिपूर्णता अवधि के लिए गेहू़ की तुलना में कम होती है।

- C. ज्वार के लिए वारखबे प्रकाश का सूचनात्मक बदला बढ़िए होता है तथा 'मादन अवयव' यह जा सकता है, जबकि गेहू में यह आसानी से अस्थिरित किया जा सकता है।
- D. शिर्षीरित प्रकाशसंश्लेषण के लिए भारतीय तापमान ज्वार के लिए गेहू की तुलना में कम होता है।
- E. अनुकूल  $^{13}\text{C} / ^{12}\text{C}$  का अनुपात ज्वार में गेहू की तुलना में अधिक होता है।
- उपरोक्त पर्यावरणों का विस्तृतिकौल सा एक समुच्छय सही है:
1. केवल A, B तथा C
  2. केवल E, C तथा F
  3. केवल A, B तथा D
  4. केवल A, C तथा E
102. Following observations were recorded while studying physiological parameters of sorghum and wheat under similar conditions:
- A. Sorghum RUBISCO exhibits relatively higher affinity for  $\text{CO}_2$  compared to that of wheat.
  - B. Light saturation of net photosynthetic flux is relatively lower for sorghum compared to that of wheat.
  - C. Warburg effect is difficult to record for sorghum and could be said as "not measurable" whereas it could be easily recorded for wheat.
  - D. Temperature optimum for net photosynthesis is lower for sorghum compared to that of wheat.
  - E.  $^{13}\text{C} / ^{12}\text{C}$  ratio of assimilate is relatively higher for sorghum compared to that of wheat.
- Which one of the following combination of the above observation is correct?
1. Only A, B and C
  2. Only B, C and E
  3. Only A, B and D
  4. Only A, C and E
103. निम्नांकित कुछ कथन यौथ में इवसन उपायद्य के संबंध में हैं:
- A. कार्बोहाइड्रेट के अपूर्ण वृद्धि (ग्रद्यमानी किएवन) के दौरान इवसन गुणक अवान्त होगा।
- B. शिर्षीरित गुणक अप्रत्यगल रूप में सूचनाएं प्रदान करती हैं (i) प्रार्थी की प्रकृति जिसका उपयोग इवसन प्रक्रिया के लिए किया गया है, एवं (ii) प्रत्येक इवसन प्रक्रिया को पारस्परिक गति।
- C. पके हुए फल में कार्बनिक अम्लों का दृष्टाव एक से अधिक इवसन गुणक को दर्शाएगा क्योंकि कार्बनिक अम्लों उन्नय साधारण यौगिकों की तुलना में ऑक्सीजन बहुत होती है।
- D. इवसन क्रिया वो द्व्यूनीजरण समवस्तुओं को हटा कर उपाय उपायद्य की प्रक्रिया इवसन गुणक को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन के बहण में कमी आती है।
- उपरोक्त कथनों का निम्नांकित कौन सा समुच्छय सही है?
1. केवल A
  2. केवल B तथा C
  3. केवल D
  4. A, B, C तथा D
104. Following are certain statements regarding respiratory metabolism in plants:
- A. Respiratory quotient during partial breakdown of carbohydrate (alcoholic fermentation) will be infinity.
  - B. Respiratory quotient indirectly provides information about (i) nature of the substrate used for respiration and (ii) the relative rate of competing respiratory processes.
  - C. Breakdown of organic acids in mature fruit will exhibit a respiratory quotient value of more than one since organic acids are relatively oxygen-rich compared to other common substrates.
  - D. Anabolic metabolism can influence respiratory quotient by removing reduction equivalents for respiration leading to decrease in oxygen uptake.
- Which one of the following combination of the above statement is correct?
1. Only A
  2. Only B and C
  3. Only D
  4. A, B, C and D

104. पौधों में उपस्थित सालगी गत्व और धूधे ने दार्करा एवं अन्य कर्मजिक पदार्थों को जै जले का कार्य समाप्तिकरण है। लीज तनाहपति के चालगी तत्त्वों के डिजिलथार्डों द्वारा भै नियन्त्रक बनाये गए हैं।

- A. आधुनिकीजीयों में गलनी पर्टिकल का होता है।
- B. अनाधुनिकीजों में गलनी पर्टिकल नहीं होती है।
- C. सभी युडिफास्ट एवं एक्सीलपी में जी-जीटीजे उपस्थित होते हैं।
- D. आधुनिकीजीय में जी-जीटीजे नहीं पाया जाता है।


1. A, C तथा D  
2. A, B तथा C  
3. A, B तथा D  
4. A, C तथा D

104. Sieve elements of phloem conduct sugars and other organic materials throughout the plant. The following statements were made about characteristics of sieve elements in seed plants:

- A. Angiosperms contain sieve plate pores.
  - B. There are no sieve plates in gymnosperms.
  - C. P-protein is present in all eudicots and many monocots.
  - D. There is no P-protein in angiosperms.
- Which of the following combination is correct?

1. B, C and D  
2. A, B and C  
3. A, B and D  
4. A, C and D

105. पदार्थ अंतर्गत, ऑक्सिट्रोन एवं गाइटोक्राइनिन एवं उनके अन्योन्यक्रिया शीड़प्रबल्लवरा के नियन्त्रण में महत्वपूर्ण भूमिका उन्हें करती है। नियन्त्रित रखायित जीव अन्योन्यक्रिया में संबंधित एक प्रयोग की दर्शाया है जो कि कटीए कलिका के उत्तराधि या प्रसुतात्पस्था रो संबंधित जीवों को दर्शाते हैं।



उपस्थित रेखापित्र पर आधारित लिम्न कथन बतायी गयी।

A. 'X' एक ऑक्सिट्रोन है, जो कि 'Q' तथा 'Z' के अन्तर्वास्ते को बचाए रखता है एवं 'M' को रोकता है।

B. 'X' एक गाइटोक्राइनिन है जो कि कटीए क्रियिक के उत्तराधि को प्रशान्तित करता है एवं 'M' के दबारा प्रेरित है।

C. डिक्टेन (शीर्ष के अंतर्वास) 'X' को रोकता है।

D. 'X' एक साइटोकाइन है जो कि 'M' को रोकता है।

नियन्त्रित कैरेन सा विकल्प सही कथन/कथनों को दर्शाता है?

1. केवल A तथा C  
2. केवल B तथा D  
3. केवल A तथा B  
4. केवल C

105. The plant hormones, auxins and cytokinins, and their interactions play an important role in regulating apical dominance. The following figure represents an experiment related to the study of gene interactions that influence axillary bud outgrowth or dormancy. Q, Z and M represent genes involved in phytohormone pathway.



Based on the above figure, the following statements were made:

A. 'X' is an auxin that maintains expression of 'Q' and 'Z' and represses 'M'.

B. 'X' is a cytokinin that promotes axillary bud growth and is induced by 'M'.

C. Decapitation (removal of apex) activates 'X'.

D. 'X' is a cytokinin that represses 'M'.


Which one of the following options represents correct statement(s)?

1. A and C only  
2. B and D only  
3. A and B only  
4. C only

- 106.** समान व्यास के एक माइलिनिकूल तंतु में एक अमाइलिनिकूल तंतु की तुलना में किया विभव की वालन गति अत्यधिक होती है। उपरोक्त पर्याप्ति की व्याख्या करने के लिए निम्न कथन बनायी गयी।
- एक तंत्रिका तंतु में चालन की गति पद्धति डिफली प्रतिरोध एवं सन्तुलित कोशिकादल्ला की अधीय प्रतिरोध के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
  - माइलिनिकूल एवं अमाइलिनिकूल तंत्रिक तंतुओं के विद्युतीय स्वभाव समान नहीं होते हैं।
  - माइलिन आवरण प्रवाहकी डिफली प्रतिरोध को कम करती है।
  - एक डैप्टिकीय विभव वा परिमाण एक माइलिनिकूल तंत्रिका तंतु ने तंत्रिकाश के दूरी के साथ एक अमाइलिनिकूल तंतु की तुलना में अधिक घटती है।
  - बोल्टन-रजिन  $\text{Na}^+$  प्रणाले ऐनडियन असन्धि पर अत्यधिक संवेदित होते हैं।
- दोनों गलत कथनों के साथ दिए गए समूहों में से किसी एक का चयन करें।
1. A तथा B
  2. B तथा C
  3. C तथा D
  4. D तथा E
- 107.** The conduction velocity of action potential in a myelinated nerve fibre was much greater than that of an unmyelinated fibre of the same diameter. The following statements were proposed to explain this observation.
- The speed of conduction in a nerve fibre is determined by the plasma membrane resistance and axial resistance of axonal cytoplasm.
  - The electrical properties of myelinated and unmyelinated nerve fibres are not similar.
  - The myelin sheath decreases the effective membrane resistance.
  - The magnitude of an electrotropic potential decreases more with distance along the axon in myelinated nerve fibres than that of unmyelinated fibres.
- F. The voltage-gated  $\text{Na}^+$  channels are highly concentrated at the nodes of Ranvier.  
Choose one of the following combinations with both INCORRECT statements:
1. A and B
  2. B and C
  3. C and D
  4. D and E
- 108.** अौक्सीजन-पर्याप्तीविन पृथक्करण बहु रक्त में  $\text{pO}_2$  एवं हीमोग्लोबिन से संस्थित  $\text{O}_2$  अणुओं की गत्या के बीच के संबंध ज्ञात दर्शाता है। बहु के 'S' के आकार की व्याख्या करने के लिए निम्न कथन प्रस्तुतित किए गए।
- हीमोग्लोबिन का चतुर्थ आकार इसकी  $\text{O}_2$  के साथ की आत्मीयता वा नियंत्रण करता है।
  - डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में, ग्लोबिन इकाइया 1-समावृति में डढ़ता से बढ़े होते हैं।

- C. हेमोग्लिन उपहकार्डीयों के बीच की अन्तर्व्यवस्थिता में बदलाव होता है, जब  $O_2$  डीऑक्सीहिमोग्लोबिन से छलपता हो।
- D. हिमोग्लोबिन के T-समाकृति में  $O_2$  के साथ इसकी आत्मीयता बढ़ती है।
- E. हिमोग्लोबिन के उत्तम समाकृति में  $O_2$  के साथ इसकी आत्मीयता घटती है।  
दोनों गलत कथनों के साथ दिए गए समूहों में से किसी एक का चयन करें।
1. A तथा B                    2. C तथा E  
3. C तथा D                    4. D तथा E
108. The oxygen-haemoglobin dissociation curve illustrates the relationship between  $pO_2$  in blood and the number of  $O_2$  molecules bound to haemoglobin. The 'S' shape of the curve has been explained in the following proposed statements:
- A. The quaternary structure of haemoglobin determines its affinity to  $O_2$ .
- B. In deoxyhaemoglobin, the globin units are tightly bound in a T-configuration.
- C. The interactions between globin subunits are altered when  $O_2$  binds with deoxyhaemoglobin.
- D. The affinity to  $O_2$  in T-configuration of haemoglobin is increased.
- E. In the relaxed configuration of haemoglobin, the affinity to  $O_2$  is reduced.
- Choose one of the following combinations with both INCORRECT statements.
1. A and B                    2. B and C  
3. C and D                    4. D and E

109. एक हृदय घर्क में बाया परिकोर्टी, बाया लिवर औ महाधमनी द्रव्याव में परिवर्तन नीचे दिए गए चार चित्र से दर्शाए गए हैं:




इद घर्क के दौरान होने वाली प्रट्टाओं (कॉर्सेम और लिवर में दशाए संबंधित प्रिंडित स्थानों (A, B, C, D) (कॉर्लम B) को नीचे दर्शाया गया है।

	कॉर्लम A		कॉर्लम B	
a.	महाधमनी कॉर्पोरल ग्लोबिन हुआ	(i)	D	
b.	दायिकपद्ध कॉर्पोरल ग्लोबिन	(ii)	B	
c.	दायिकपद्ध कॉर्पोरल ग्लोबिन हुआ	(iii)	A	
d.	महाधमनी कॉर्पोरल ग्लोबिन	(iv)	C	

उप विकल्प का चुनाव करे और प्रट्टाओं को विनियुक्त स्थानों के साथ सही गिराव दर्शाते हैं।

1. a - (ii), b - (iii), c - (i), d - (iv)  
2. a - (i), b - (iv), c - (ii), d - (iii)  
3. a - (iv), b - (i), c - (iii), d - (ii)  
4. a - (iii), b - (ii), c - (iv), d - (i)

109. The changes in left atrial, left ventricular and aortic pressure in a cardiac cycle are shown below in the figures:



Given below are the events of cardiac cycle (column A) associated with marked points (A, B, C, D) in the figure (column B).

	Column A	Column B
a.	Aortic valve opens	(i) D
b.	Mitral valve closes	(ii) B
c.	Mitral valve opens	(iii) A
d.	Aortic valve closes	(iv) C

Choose the option that matches the events with marked points in the figure.

1. a - (ii), b - (iii), c - (i), d - (iv)  
2. a - (i), b - (iv), c - (ii), d - (iii)  
3. a - (iv), b - (i), c - (iii), d - (ii)  
4. a - (iii), b - (ii), c - (iv), d - (i)

- 110.** एक व्यक्ति मध्यम स्तर के रक्तस्रावी अंतर्गत से लापस स्वस्थ लाभे किया। इसस्थ होते के दौरान अन्तीदार ट्रेडिक क्रियाविधियों ने जिस्त व्यवहार में प्रस्तावित किया गया है।
- रक्तस्राव के प्रशंसन रक्त में एन्जीट्रिक एंड्रेसीनीय द्रवय में कमी अनुबन्धी बहिभारामीप्रकार लंबे के अवधारण को कारण बनती है।
  - रक्तस्राव के प्रशंसन रक्त में एन्जीट्रिक एंड्रेसीनीय द्रवय में कमी अनुबन्धी बहिभारामीप्रकार लंबे के अवधारण को कारण बनती है।
  - रक्तस्राव के प्रशंसन एंड्रेसीनीय के वर्धित ग्राव गुदे द्रवय जल के अवधारण को बढ़ाता है।
  - रक्तस्राव ने व्यक्ति, अधिवक्त व्यवहार द्रवय एंड्रेसीनीय एवं नार-एंड्रेसीनीय को चढ़ा हुआ शाव परिधीय फ्लिरोध में कमी को प्रेरित करता है।
  - रक्तस्राव के सौरान केन्द्रीय तंत्रिका द्वारा स्थानिक अवक्तुल घटिक्रिया अनुकूली अवधारण को प्रकट करता है। दोनों सही कथनों गुरुत किसी रक्त का जिस्त समुच्चयों से अनुभव करें।
1. A तथा B  
2. B तथा C  
3. C तथा D  
4. D तथा E


- 110.** A person recovered from a moderate degree of haemorrhagic shock. The participating physiological mechanisms in this recovery process are proposed in the following statements:
- The decrease in arterial pressure after haemorrhage causes inhibition of sympathetic-vasoconstrictor system.
  - After haemorrhage, the angiotensin II level in blood is increased which causes increased re-absorption of Na<sup>+</sup> in renal tubules.
  - The increased secretion of vasopressin after haemorrhage increases water reabsorption by the kidneys.
  - After haemorrhage, the reduced secretion of epinephrine and nor-epinephrine from adrenal medulla induces decreased peripheral resistance.

E. In haemorrhage, the central nervous system ischemic response elicits sympathetic inhibition.

Choose one of the following combinations with both the correct statements:

1. A and B                    2. B and C  
3. C and D                    4. D and E

- 111.** एक स्पष्ट व्यक्ति को गर्हन तक पानी में सौंपी गुदा में 3 घंटे तक दुखाया गया। अट्रियल एंड्रेसीनीय प्रोटोकॉल (ANP) की प्रदूष सम्भवता, रेनिन एवं एल्डोस्ट्रोरेन की मात्रा आवधारण समय को जोड़कर। घंटे के उद्दारण पर 3 घंटे के लिए आवधारण किया गया। परिणामों को रेखांगिक की सहायता से नीचे दिखाया गया है।




इस प्रायोगिक परिस्थिति (IC) के परिणामों को निम्न प्रस्तावित कथनों द्वारा वर्णित किया है जो कि सही या गलत हो सकते हैं।

- A. ANP का शाव परिकोष्ट के खिचाव के लिए को आनुभाविक होते हैं।  
B. IC में प्रदूष सम्भवता ने कमी अनुकूली जिया में बढ़ावदारी के कारण फ़ोली है।  
C. IC में एल्डोस्ट्रोरेन के स्तर से कमी प्रदूष रेनिन के स्तर का प्रभाव है।  
D. सचारण प्रक्रिया में गुरुत्वाकारण के प्रभाव का IC में प्रतिकार होता है।  
E. IC में केन्द्रीय जिया द्रवय में कमी हो जाती है।

सभी सही कथनों के साथ तिरन्तकित एवं समुच्चय का चयन करें।

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. A, B, C | 2. A, C, D |
| 3. C, D, E | 4. B, C, D |

111. A healthy individual was immersed in water up to neck in an upright posture for 3 h. The plasma concentration of atrial natriuretic peptide (ANP), renin and aldosterone were measured for 5 h at 1 h intervals including the immersion period. The results are graphically presented below.



The results of this experimental condition (EC) are explained in the following proposed statements which may be correct or incorrect.

- A. ANP secretion is proportional to the degree of stretch of atria.
  - B. The decreased plasma renin concentration in EC is due to increase in sympathetic activity.
  - C. The decreased aldosterone level in EC is the effect of plasma renin level.
  - D. The effect of gravity on the circulation is counteracted in EC.
  - E. The central venous pressure is decreased in EC.
- Choose one of the following combinations with all correct statements:

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. A, B, C | 2. A, C, D |
| 3. C, D, E | 4. B, C, D |

112. कई उत्परिवर्ती (1-4) पृथक्कृत किये गये जिनमें वृद्धि के लिए योगिक E की आवश्यकता होती

है। जब सैक्षण्य पथ में योगिक A से D ते E के बीच में बारे में विद्युत है, परंतु संश्लेषण पथ में उनका इस अविद्यत है। हर एक योगिक का वरीहण प्रत्येक उत्परिवर्ती में उत्पन्न वृद्धि वा अतिव्यवरूप करने की क्षमता के लिए किया गया (1-4)। निम्न सरणी में, एक धनात्मक संकेत वृद्धि को दर्शाता है तथा कृष्णात्मक संज्ञा वृद्धि नहीं को दर्शाता है।

उत्परिवर्ती	साध्यम के साथ मिश्रित योगिक				
	A	B	C	D	E
1	-	-	-	+	+
2	+	+	+	+	+
3	-	-	+	+	+
4	-	-	-	-	+

सैक्षण्य पथ में योगिकों (A से E) का कौन सा क्रम है?

- 1. E → D → C → B → A
- 2. A → C → D → B → E
- 3. E → B → D → C → A
- 4. A → B → C → D → E


112. Several mutants (1-4) are isolated, all of which require compound E for growth. The compounds A to D in the biosynthetic pathway to E are known, but their order in the pathway is not known. Each compound is tested for its ability to support the growth of each mutant (1-4). In the following table, a plus sign indicates growth and a minus sign indicates no growth.

Mutant	Medium supplemented with compound				
	A	B	C	D	E
1	-	-	-	+	+
2	-	+	+	+	+
3	-	-	+	-	+
4	-	-	-	-	+

What is the order of the compounds (A to E) in the pathway?

- 1. E → D → C → B → A
- 2. A → C → D → B → E
- 3. E → B → D → C → A
- 4. A → B → C → D → E


113. निम्नान्ति रेखाचित्र एक प्रतिलोमन हिपमयूरमज का है जो कि एकल विनिमय प्रक्रिया में है।



अधीसूत्रण के पश्चात् उनके परिणामों की स्थानव्युत्कर्ष करने के लिए निम्न कथन बनाये गये हैं।

- परिणामी दोनों गुणसूत्रों में लोपन एवं द्विगुणन होगा।
  - एक द्विकेन्द्री एवं एक अकेन्द्री गुणसूत्र बनेगे।
  - प्रतिलोमन विनिमय प्रक्रिया को नहीं होने देता है, अतः यदि विनिमय प्रक्रिया आरंभ भी होता है तो यह सम्भवित नहीं होगा।
  - प्रतिलोमन से विनिमय प्रक्रिया का प्रतिदमन होना साता जाएगा क्योंकि अकेन्द्री गुणसूत्र विधिपूर्वक विसंयोजित नहीं होगा।
  - अधीसूत्रण के पश्चात् विनिमयी अधीसूत्रों से निर्मित सारे युग्मक नियौत होंगे क्योंकि उनमें बड़े लोपन अधिक द्विगुणन होगा।
  - युग्मक नियौत विनिमय प्रक्रिया नहीं हुआ होगा (लस्किय) जीवित रहेंगे।
- कथनों का कोन सा सम्बन्ध नहीं है?
- B तथा E
  - A तथा C
  - B, D तथा F
  - A, C तथा F

113. Following is the picture of an inversion heterozygote undergoing a single crossing-over event.



The following statements are given towards explaining the consequences at the end of meiosis:

- The resultant two chromosomes will have deletions and duplications.
- A dicentric and an acentric chromosome will be formed.
- The inversion does not allow crossing over to occur, so even if a crossing over is initiated, it will fail to occur.
- The crossing over is considered suppressed by inversion as the acentric chromosome will not segregate normally.
- All the gametes formed with cross-over chromatids at the end of meiosis will be non-viable as they carry large deletion or duplication.
- The gametes having non-cross-over (parental) chromatid will survive.

Which combination of statements is correct?

- B and E
- A and C
- B, D and F
- A, E and F

114. बहुरूपी DNA अनुब्राह्म वा उपर्योग आण्डिक पहचान के लिए किया गया। लघु अनुब्राह्मित पुनरावृत्ति (STRs) एवं एकल न्यूक्लिओटाइड बहुरूपता (SNPs) वा उपर्योग बहुरूपी विनूक के रूप में किया गया। निम्न सारणी अस्लेशसूत्री (SNP), अलिंगसूत्री (STR), मूलकणिकीय (SNP), Y-संबद्ध डाटा की अवधारणा को आपस में जुड़े चार व्यक्तियों के लिए, जो कि भातान्पिता एवं उनके दो सतानों का प्रतिनिधित्व करता है, उनका विवरण प्रदान करता है।

व्यक्ति	अलिंगसूत्री		सूत्रकणिकीय DNA		Y-संबद्ध	
	SNP	STR	SNP1	SNP2		
A	C/C	13/12	C	-	O	13
B	C/G	13/13	C	A	A	13
C	C/G	14/13	C	A	-	-
D	C/C	13/14	C	-	A	-

उपरोक्त आंकड़ों के अधार पर उन व्यक्तियों का सुनाव करें जो दोनों जनकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- द्वितीय A तथा D
- द्वितीय C तथा C

3. व्यक्ति B तथा C
4. व्यक्ति C तथा D

114. Polymorphic DNA sequences are used for molecular identification. Short tandem repeats (STRs) and Single Nucleotide Polymorphism (SNPs) are used as polymorphic markers. The table below summarizes the status of autosomal SNP, autosomal STR, mitochondrial SNP, Y-linked STR for four individuals related to each other, representing parents and their two children.

Indiv- idual	Autosomal		Mt DNA		Y- linked
	SNP	STR	SNP1	SNP2	
A	C/C	13/12	C	G	13
B	C/G	13/13	C	A	13
C	C/G	14/13	C	A	-
D	C/C	13/14	C	A	-

Based on the above data, identify the individuals representing the two parents.

1. Individuals A and D
2. Individuals A and C
3. Individuals B and C
4. Individuals C and D

115. एक अलिंगसूत्री अप्रभावी अवस्था एक यादचिक संगम आबादी में 10,000 में से 1 नवजात को प्रभावित करती है। इस आबादी में राबहकों की अपेक्षित संख्या क्या होगी?
1. 10,000 नवजाती में 1
  2. 500 नवजाती में 1
  3. 100 नवजाती में 1
  4. 50 नवजाती में 1

115. An autosomal recessive condition affects 1 newborn in 10,000 in a random mating population without any disruptive acting force. What is the approximate expected frequency of carriers in this population?
1. 1 in 1000 newborns
  2. 1 in 500 newborns
  3. 1 in 100 newborns
  4. 1 in 50 newborns

116. एंजेलगैन सिन्ड्रोम (AS) एवं प्रैदर-विलि सिन्ड्रोम (PWS) में अनि विशिष्ट लक्षण होते हैं। इन सिन्ड्रोमों के उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों को नीचे दर्शाये गये हैं।

- A. पैतृक गुणसूत्र 15q11-13 का स्फुटविलीण
- B. मातृक गुणसूत्र 15 का एकजनकीय द्विस्तरी
- C. यूबिक्यूटीन लाइगेज E3A के नातक कार्यशील अनुकृति का अभाव
- D. SNURF-SNRPN अनुलेख का अभाव, जो कि केवल पैतृक गुणसूत्र से उत्पादित होता है।

E. लघु कैलिस्टीन RNAs की अपूर्णता, जो कि पैतृक गुणसूत्र से SNURF-SNRPN अनुलेख के अत्यधिक से कूटनेत्रित होते हैं।

प्रैदर-विलि एवं एंजेलगैन के सबध में उत्तरों का जोड़ना-सा समुच्चय सही है?

1. PWS - A, C, D; AS - B, E
2. PWS - केवल B; AS - A, C, D, E
3. PWS - A, B, D, E; AS - केवल C
4. PWS - A, B; AS - C, D, E

116. Angelman syndrome (AS) and Prader-Willi Syndrome (PWS) have very distinct symptoms. Factors responsible for the occurrence of these syndromes are given below:

- A. Microdeletion of 15q11-13 in paternal chromosome.
- B. Uniparental disomy of maternal chromosome 15.
- C. Lack of functional maternal copy of ubiquitin ligase E3A.
- D. Lack of SNURF-SNRPN transcript, which is produced only from paternal chromosome.
- E. Deficiencies of small nucleolar RNAs, which are encoded from the introns of SNURF-SNRPN transcript from paternal chromosome.


Which of the following combination of answers is correct for Angelman and Prader-Willi Syndromes?

1. PWS - A, C, D; AS - B, E
2. PWS - B only; AS - A, C, D, E
3. PWS - A, B, D, E; AS - C only
4. PWS - A, B; AS - C, D, E

117. विचित्रजन्म (अतिरायित) समान विधि का उपयोग करते हुए, चार *Hfr* नस्लों का विश्लेषण उस मन्दिरान को जानने के लिए किया गया था जिसमें वे विचित्रजन्म जीलों की संख्या को *F* नस्ल में प्रेरित करते हैं। प्रत्येक *Hfr* नस्ल अपने जीलों का प्रेषण एक विशिष्ट क्रम में करते हुए पाया गया जैसा कि सारणी में संक्षेपित किया गया है। [केवल प्रथम चार जीलों की गणना की गई है]

प्रेषण का त्रैमा	<i>Hfr</i> नस्ल			
	1	2	3	4
A	B	M	F	
B	A	K	H	
D	L	J	G	
F	M	G	J	
अन्तिम	H	K	H	K

निम्नांकित कठौड़ सा एक विकल्प मौत्रिक नस्ल में जीलों के अनुक्रम को सही तरीके से दर्शाते हैं जिनसे *Hfr* नस्लों के व्युत्पन्न हुए, एवं *F* फ्लाइम्डों की सम्भासन का स्थान एवं धुरणता को दर्शाते हैं?




117. Using interrupted mating, four *Hfr* strains were analysed for the sequence in which they transmitted a number of different genes to a *F*<sup>-</sup> strain. Each *Hfr* strain was found to transmit its genes in a unique order as summarized in the table [Only the first five genes were scored].

Order of transmission	<i>Hfr</i> strain			
	1	2	3	4
First	A	B	M	F
	B	A	K	H
	D	L	J	G
	F	M	G	J
Last	H	K	H	K

3-A-H

Which one of the following correctly represents the gene sequence in the original strain from which the *Hfr* strains were derived as well as the place of integration and polarity of the *F* plasmid?



118. नीचे दीर्घी समय जीवजगती की तालिका या तो मिथेनोजेन्स या मिथेनोट्रॉफ्स जैसे किए गये करते हैं:

A. मिथेनोबैक्टीरियम् sp.

B. मिथेनोकार्बस् sp.

C. मिथाइलोबैक्टरियम् sp.

D. मिथाइलोबैक्टरियस् sp.

निम्न में से कौन सा विकल्प उभयोद्धत तालिका को सही तरीके से वर्णिकृत करता है?

1. मिथेनोजेन्स - A; मिथेनोट्रॉफ्स - B, C, D

2. मिथेनोजेन्स - A, B, C; मिथेनोट्रॉफ्स - D

3. मिथेनोजेन्स - A, B; मिथेनोट्रॉफ्स - C, D

4. मिथेनोजेन्स - A, D; मिथेनोट्रॉफ्स - B, C

118. Given below is a list of bacteria either functioning as methanogens or methanotrophs:

A. *Methanobacterium* sp

B. *Methanococcus* sp

C. *Methylomonas* sp

D. *Methylosinus* sp

Which of the following options classifies the above list correctly?

1. Methanogen - A; Methanotrophs - B, C, D

2. Methanogens - A, B, C; Methanotroph - D

3. Methanogens - A, B; Methanotrophs - C, D

4. Methanogens - A, D; Methanotrophs - B, C

119. निम्नांकित सारणी संधिष्ठाद ब्रायिंगों के समूहों (A-D) एवं कुछ विशेषताओं (i-v) की एक तालिका प्रस्तुत करते हैं।

i. विशेषता 1

ii. विशेषता 2

iii. विशेषता 3

iv. विशेषता 4

v. विशेषता 5

A.	ओपेलिकाप्टोरेन्स	(i)	कीटों को समाविष्ट करते हैं
B.	ट्रिलोबाइट्स	(ii)	शिरोवक्ष होते हैं एवं प्रायः सिमटी जटधा उपांग पाये जाते हैं
C.	षटपदीय	(iii)	समुद्रीय संधिपाद प्राणी जो कि पर्मियन विनुपलीकरण में लुप्त हो गये
D.	कोलिसेरेट	(iv)	संधिपाद प्राणी से सबधित माना जाता है परन्तु जिनमें जोड़ के उपांग होते हैं।
		(v)	इकलौता संधिपादीय रागूह जिनमें शृंखला नहीं होती।

निम्नान्कित कौन सा एक विकल्प संधिपाद प्राणी समूह एवं इन विशेषताओं का सही मेल दर्शाते हैं?

1. A - (v); B - (iii); C - (i); D - (v)
2. A - (i); B - (ii); C - (iv); D - (ii)
3. A - (iii); B - (iv); C - (ii); D - (i)
4. A - (iv); B - (iii); C - (v); D - (ii)

119. The table given below provides a list of groups of Arthropods (A-D) and some features (i-v).

A.	Onychophorans	(i)	includes insects
B.	Trilobites	(ii)	have cephalothorax and often pincer-like appendages

C.	Hexapods	(iii)	marine arthropods that disappeared in the Permian extinction
D.	Chelicerates	(iv)	are considered related to arthropods but have unjoined appendages
		(v)	only arthropod group without antennae

Which one of the following options represents the correct match between the arthropod groups with these features?

1. A - (iv); B - (iii); C - (i); D - (v)
2. A - (i); B - (ii); C - (iv); D - (ii)
3. A - (iii); B - (iv); C - (ii); D - (i)
4. A - (iv); B - (iii); C - (v); D - (ii)

120. निम्नान्कित सारणी में संकटों की क्षेपणी एवं भारतीय जनतुआ की एक सूची उपायमुक्तम में प्रदान किए गये हैं:

जनतुर	संकटों की क्षेपणी
i. हिंगात पलोरिकल (परस पली)	A. अत्यन्त संकटशर्त
ii. गंगा सूस (डाकिफल)	B. संकटशर्त
iii. भारतीय गिर्दा	C. अनियंत्रित विकल्प
iv. भारतीय गिर्दि	

निम्नान्कित कौन सा विकल्प जनतु एवं उनके संकटों की क्षेपणी को IUCN के तात्त्व सूची के अनुसार सही मेल दर्शाते हैं?

1. i - A; ii - A; iii - B; iv - C
2. i - A; ii - B; iii - C; iv - A
3. i - B; ii - C; iii - B; iv - A
4. i - C; ii - A; iii - B; iv - B

120. In the following table, a list of threat categories and animals of India is given in an alphabetical order:

Animals	Threat category
i. Bengal Florican	A. Critically endangered
ii. Ganga River Dolphin	B. Endangered
iii. Indian Rhinoceros	C. Vulnerable
iv. Indian Vulture	

Which of the following options show correct combination of animals and their threat category as per Red Data List of IUCN?

1. i - A; ii - A; iii - B; iv - C
2. i - A; ii - B; iii - C; iv - A
3. i - B; ii - C; iii - B; iv - A
4. i - C; ii - A; iii - B; iv - B

121. निम्नांकित सारणी विभिन्न पादप वर्गों में युनिका विशेषता-सूधक लक्षणों की उपस्थित (+) तथा अनुष्ठित (-) को दर्शाते हैं।

वर्गोंकी	लक्षण			
	दाल एवं पोतवाह	काण्ठ	पुष्प	बीज
A	+	..	-	-
B	+	+	+	+
C	-	-	-	-
D	+	+	-	+

उपरोक्त के आधार पर, निम्नांकित कौन सा वर्गोंकी A, B, C तथा D की ताहि पहचान को दर्शाता है?

1. A - हान्डवट्टस; B - ओक्स (बलूत); C - फर्नेस (पर्णाग); D - पाइन्स (टेक्टार)
2. A - फर्नेस (पर्णाग); B - ओक्स (बलूत); C - हान्डवट्टस; D - पाइन्स (टेक्टार)
3. A - हान्डवट्टस; B - पाइन्स (टेक्टार); C - फर्नेस (पर्णाग); D - ओक्स (बलूत)
4. A - फर्नेस (पर्णाग); B - पाइन्स (टेक्टार); C - हान्डवट्टस; D - ओक्स (बलूत)

121. Following table shows presence (+) and absence (-) of selected distinguishing characters of different plant taxa:

Taxon	Characters			
	Xylem und Phloem	Wood	Flowers	Seeds
A	+	-	-	-
B	+	+	+	+
C	-	-	-	-
D	+	+	-	+

Based on the above, which of the following shows correct identity of taxa A, B, C and D?

1. A - Hornworts; B - Oaks; C - Ferns; D - Pines
2. A - Ferns; B - Oaks; C - Hornworts; D - Pines
3. A - Hornworts; B - Pines; C - Ferns; D - Oaks
4. A - Ferns; B - Pines; C - Hornworts; D - Oaks

122. निम्नांकित सारणी वर्णनक्रमानुसार कुछ गृहित फसलें एवं उत्पत्तिस्थलों की सूचि दर्शाता है:

फसल	उत्पत्ति स्थल
i. जौ (जड़ी)	A. चीन
ii. मसूका	B. उपजाऊ वर्धमान
iii. मुख दाल	C. भारत
iv. चावल	D. दक्षिणी मैक्सिको
v. मैदू	

उपरोक्त के आधार पर, निम्नांकित कौन सा विकल्प फसल एवं उनके उत्पत्ति स्थल का सही विस्तार दर्शाता है?

1. i - C; ii - D; iii - A; iv - B; v - B
2. i - B; D; ii - B; iii - A; C; iv - A; v - B
3. i - C; ii - D; iii - C; iv - B; v - C
4. i - B; ii - D; iii - C; iv - A; C; v - B

122. Following table shows an alphabetical list of certain domesticated crops and places of origin:

Crop	Place of origin
i. Barley	A. China
ii. Maize	B. Fertile Crescent

iii.	Mung Bean	C.	India
iv.	Rice	D.	Southern Mexico
v.	Wheat		

Based on the above, which one of the following options represent the correct match between crops and their place of origin?

1. i - C; ii - D; iii - A; iv - B; v - B
2. i - B; D; ii - B; iii - A, C; iv - A; v - B
3. i - C; ii - D; iii - C; iv - B; v - C
4. i - B; ii - D; iii - C; iv - A; C; v - B

123. पुष्प सूत्रों एवं पादप कुलों की एक सूची निम्न सारणी से दिया गया है:

FLORAL FORMULA	FAMILY
i. ♂ ♀ K(5) C(5) A(5) G(2)	A. Brassicaceae
ii. ♂ ♀ F(3+3) A(3+3) G(3)	B. Fabaceae
iii. ♂ ♀ K(2+2) C(2+4) A(2)	C. Liliaceae
iv. + K(5) C(2), 3 A(10) G(1)	D. Spinaceae

निम्नांकित कौन सा विकल्प प्रादप कुलों एवं उनके प्रतिशेष पुष्प सूत्रों का सर्वसे उचित मैल दर्शात है?

1. i - D; ii - B; iii - A; iv - C
2. i - D; ii - C; iii - A; iv - B
3. i - D; ii - C; iii - B; iv - A
4. i - A; ii - C; iii - B; iv - D

123. A list of floral formulae and plant families are given in the following table:



FLORAL FORMULA	FAMILY
i. ♂ ♀ K(5) C(5) A(5) G(2)	A. Brassicaceae
ii. ♂ ♀ F(3+3) A(3+3) G(3)	B. Fabaceae
iii. ♂ ♀ K(2+2) C(2+4) A(2)	C. Liliaceae
iv. + K(5) C(2), 3 A(10) G(1)	D. Spinaceae

Which of the following options most appropriately matches given plant families with their representative floral formulae?

1. i - D; ii - B; iii - A; iv - C
2. i - D; ii - C; iii - A; iv - B
3. i - D; ii - C; iii - B; iv - A
4. i - A; ii - C; iii - B; iv - D

3-A-H



124. धान के मौद्रिकों को जिसमें धान की प्रजातियों अलग-अलग संख्या ने हैं। 19 वर्षों के लिए संबंधित किया गया। प्रयोग के अन्त में धान के पूरे फैलाव को परिमित किया गया। स्टडी के नाइट्रोजन का मापन पीथं द्वारा इनके उपयोग के बारे में जानने के लिए किया गया। इन संबंधों को निम्नांकित रेखा चित्रों में दर्शाया गया है।



उपरोक्त प्रयोग से निम्नांकित कौन-सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है?

1. भूखण्डे, जिनमें किसी धानों की प्रजातियों की प्रवृत्ति कम है, नवा नाइट्रोजन को बढ़ाती है जिससे कि पीथं का फैलाव बढ़ता है।
2. भूखण्डे जिनमें प्रजातियों की प्रवृत्ति ज्यादा है वे अधिक स्थिरता एवं अति कुशल नाइट्रोजन के उपयोग को दर्शाते हैं।
3. भूखण्डे जिनमें प्रजातियों की प्रवृत्ति ज्यादा है वे नाइट्रोजन का अधिक कुशल उपयोग करते हैं, परन्तु वर्धित शुद्ध प्राप्तिक उत्पादन को नहीं दर्शाएंगे।
4. प्रजातियों की प्रवृत्ति साझा उत्पादकता एवं नाइट्रोजन के उपयोग के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता।

124. Grassland plots with varying number of grass species were cultivated for 10 years. At the end of the experiment, total plant cover was measured. Soil nitrogen was also measured to assess its utilization by plants. The relationships are shown in the following plots.



Which one of the following inferences can be drawn from the above experiment?

- Grasses in plots with lower species richness enriched soil nitrogen, thereby increasing the plant cover.
  - Plots with greater species richness showed greater stability and more efficient soil nitrogen utilization.
  - Plots with greater species richness utilized nitrogen more efficiently, but would not show increased net primary production.
  - No correlation can be drawn between species richness, community productivity and nitrogen utilization.
125. निम्न लाक्षण्य को सबसे उपयुक्त विकल्प से सूची करें।  
बहुसंख्यक पादप प्रजातियों की विविधता का दैशिक विश्लेषण यह दर्शाती है कि पत्तियों के बढ़ते जीवनकाल के साथ,
- पत्तियों की विविधता क्षेत्रफल बढ़ता है जबकि पत्तियों का नाइट्रोजन एवं शुद्ध प्रकाशसंश्लेषण दूर घटता है।
  - पत्तियों की विविधता क्षेत्रफल, पत्तियों का नाइट्रोजन एवं शुद्ध प्रकाशसंश्लेषण दूर घटता है।
  - पत्तियों की विविधता क्षेत्रफल घटता है जबकि पत्तियों का नाइट्रोजन एवं शुद्ध प्रकाशसंश्लेषण दूर बढ़ता है।
  - पत्तियों की विविधता क्षेत्रफल घटता है जबकि पत्तियों का नाइट्रोजन एवं शुद्ध प्रकाशसंश्लेषण दूर बढ़ता है।

2. पत्तियों की विविधता क्षेत्रफल, पत्तियों का नाइट्रोजन एवं शुद्ध प्रकाशसंश्लेषण दूर बढ़ता है।

3. पत्तियों की विविधता क्षेत्रफल, पत्तियों का नाइट्रोजन एवं शुद्ध प्रकाशसंश्लेषण दूर घटता है।


4. पत्तियों की विविधता क्षेत्रफल घटता है जबकि पत्तियों का नाइट्रोजन एवं शुद्ध प्रकाशसंश्लेषण दूर बढ़ता है।

125. Complete the following sentence with the most appropriate option.

Global analysis of a large number of plant species traits showed that with increase in leaf lifespan,

- specific leaf area increases whereas leaf nitrogen and net photosynthesis rate decrease.
- specific leaf area, leaf nitrogen and net photosynthesis rate increase.
- specific leaf area, leaf nitrogen and net photosynthesis rate decrease.
- specific leaf area decreases whereas leaf nitrogen and net photosynthesis rate increase.


126. एक बृहि भूम्य में बन प्रक्षेत्रों को एक अआवासीय समाचार में आवास दर्तीप के सहरा अवलोकित किया जा सकता है। मैकार्डर एवं विल्सन का दर्तीप और-भौगोलिक सिद्धांत का उपयोग इन बन प्रक्षेत्रों में प्रजातियों की प्रचुरता के स्वरूपों की अधिक्षयवाणी करने के लिए किया जा सकता है और कि वीधे प्रदर्शित रेखा चिरों में दर्शाया गया है।



रेखांकित कौन सा एक ग्रेट सिद्धांत से व्युत्पन्न शैलिक्षणिकी को सही तरीके से दर्शाता है?

- 1. A तथा C
- 2. A तथा D
- 3. B तथा C
- 4. B तथा D

126. Forest fragments in an agricultural landscape can be viewed as islands of habitat in an ocean of non-habitat. MacArthur and Wilson's island biogeography model can be used to predict patterns of species richness in these forest fragments which are represented in the graphs below.



Which one of the following combinations of the graphs correctly represents predictions from the model?

- 1. A and C
- 2. A and D
- 3. B and C
- 4. B and D

127. एक झील में मछली की एक प्रजाति के आबद्धी की संख्या के निर्धारण के लिए एक अन्वेषक ने 100 मछलियों को पकड़कर उनकी रंगीन अंकितक से पिछित किया। एक सप्तवाह के बाद अन्वेषक उसी झील पर गापस आये एवं उसी प्रजाति के 150 मछलियों को पकड़ा तथा पाया कि उनमें से 25 महले से चिन्हित किये हुए हैं। यह नामकर कि अप्रवासन या उत्प्रवासन नहीं हुआ है, झील में मछली की प्रजाति की कुल आबद्धी संख्या होगी:


- 1. 17
- 2. 38
- 3. 600
- 4. 860

127. In order to estimate population size of a fish species in a lake, a researcher captures 100 fish from the lake and marks them with coloured tags. A week later, the researcher returns to the lake and catches 150 fish of

the same species and finds that 25 of them are previously tagged ones. Assuming no immigration or emigration occurred, the total population size of the fish species in the lake will be:

- 1. 17
- 2. 38
- 3. 600
- 4. 860


128. जिम्न रेखांकित में ग्राफ़ के सिद्धांत के अन्धार पर प्रादृष्ट जीवन वृत्त को दर्शाया गया है जिसमें कि सनाव, खलल एवं प्रतिद्रव्यन्दिता महत्वपूर्ण कारक हैं।



निम्नांकित कौन सा एक विकल्प उपरोक्त रेखांकित में A, B तथा C को बनानुसार सही तरह से दर्शाता है?

- 1. बारहमासी शक्ति, वृक्ष एवं झाड़ियाँ, वार्षिक पौधे
- 2. वार्षिक पौधे, बारहमासी शक्ति, वृक्ष एवं झाड़ियाँ
- 3. वार्षिक पौधे, वृक्ष एवं झाड़ियाँ, बारहमासी शक्ति
- 4. वृक्ष एवं झाड़ियाँ, बारहमासी शक्ति, वार्षिक पौधे

128. Given below is a graphical representation of plant life histories based on Grime's model in which stress, disturbance and competition are the important factors.



Which of the following options correctly represents A, B and C, respectively in the figure above?

1. perennial herbs, trees and shrubs, annual plants.
2. annual plants; perennial herbs, trees and shrubs.
3. annual plants, trees and shrubs, perennial herbs.
4. trees and shrubs, perennial herbs, annual plants.

129. निम्न सारणी चुनिएँ द्वारा प्रजातियों A, B, C तथा D के विशेषताओं को दर्शाते हैं:

विशेषता	Species			
	A	B	C	D
इकलौन आवृत्ति	उच्च	मध्यम	उच्च	मिस्र
r-अडिक्सिल	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
प्राथमी प्रजाति	आर्टिशिल	आर्टिशिल	आर्टिशिल	आर्टिशिल
परिवर्तनशीलक	उच्च	मिस्र	उच्च	मिस्र
आवृत्ति				

उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर निम्नकिंत कौन सा संवेदन: अव्यापक (मुख्यतः करने वाला) हो जायेगा अदि उनके उत्पत्तिश्वल एवं उपनिवेशन के स्थान के लिए का जलवाय समान हो जायेगा?

1. A तथा D प्रजातियों
2. केवल A प्रजाति
3. केवल D प्रजाति
4. B तथा C प्रजातियों


129. Following table shows attributes of selected species A, B, C and D.

Attributes	Species			
	A	B	C	D
Dispersal ability	High	Low	High	Low
r-Selected	Yes	Yes	No	No
Predominant reproduction mode	Asex-	Sexual	Asex-	Sexual
Competitive ability	High	Low	High	Low

Based on the above information, which of the following is most likely to become invasive if climate matches between its site of origin and site of colonization?

1. Species A and D
2. Species A only
3. Species D only
4. Species B and C


130. प्रयोगिक जन्तुओं में चार औषधियों (A,B,C,D) का उपयोग अधिक आवर्तन को नष्ट करने के लिए किया गया। अनुपचारित वीं तुलना में औषिक आवर्तन के स्वरूप में प्रादर्शन को लोग दर्शाया गया है। इन रेखा अनुचारित में औषिक आवर्तन को प्रदर्शित करता है एवं बिल्कु रेखा उपचारित जन्तुओं के औषिक आवर्तन को।



उपरोक्त प्रयोग में से निम्नानुसार कौन सी व्याप्ति गलत है?


1. औषधि A का उपयोग आवर्तन के अवधि के मिश्राद को कम करने के लिए किया जा सकता है।
2. औषधि B का उपयोग अवधि में परिवर्तन के लिए आयाम को दीर्घकालीन कम करने के लिए किया जा सकता है।
3. औषधि C का उपयोग आवर्तन की अवधि एवं आयाम को दीर्घकालीन कम करने के लिए किया जा सकता है।
4. औषधि D का उपयोग हृद्धता को कम करने एवं आवर्तन को अग्र करने में किया जा सकता है।

130. Four drugs (A,B,C,D) were used to disrupt a biological rhythm in experimental animals. The changes in the pattern of the biological rhythm as compared to untreated are shown below. The solid line represents the biological rhythm of the untreated and broken line represents that of the treated animals.



Which of the following interpretations from the above experiment is INCORRECT?

1. Drug A can be used to reduce the period length of the rhythm.
  2. Drug B can be used for sustained lowering of amplitude of the rhythm without changing its period.
  3. Drug C can be used for sustained lowering of amplitude and period of the rhythm.
  4. Drug D can be used to reduce the robustness and dampen out the rhythm.
131. नीचे प्रदर्शित तात्से वैश्वदृष्टा 8 जातियों में दीर्घ क्रम-विकास संबंध की दर्शाता है। इन जातियों के बारे में तो जील (b) या लाल (r) के हैं, रंगों को हर जाति के लाल के सामने दर्शाया गया है।




कृपणता के लिए धूम्रपान पर विभिन्नकित कौन सा कथन इन जातियों के दल में नए के शरीर के रंग के क्रमिक विकास को सबसे सही लीके से दर्शाता है?

1. इन राशी 8 जातियों के सबसे आधुनिक उभयनिष्ठ पूर्वज न्यूरो रूप से 3 बार हुआ है।

2. इन राशी 8 जातियों के सबसे आधुनिक उभयनिष्ठ पूर्वज का रंग लाल था, जौसे का क्रमिक विकास स्पष्टतर रूप से 2 बार हुआ है।
3. इन राशी 8 जातियों के सबसे आधुनिक उभयनिष्ठ पूर्वज का रंग लाल था, जौसे का क्रमिक विकास स्पष्टतर रूप से 2 बार हुआ है।

131. The phylogenetic tree below shows evolutionary relationships among 8 species. Males of these species are either blue (b) or red (r) in colour, the colour being indicated next to each species' name.



Based on the principle of parsimony, which of the following statements best represents the evolution of male body colour in this set of species?

1. The most recent common ancestor of all 8 species was blue; red evolved independently 5 times.
2. The most recent common ancestor of all 8 species was blue; red evolved independently 4 times.
3. The most recent common ancestor of all 8 species was red; blue evolved independently 3 times.
4. The most recent common ancestor of all 8 species was red; blue evolved independently 2 times.

132. दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय सूखीबन स्तनपायीयों की एक वर्णानुक्रमक सूची नीचे दिया गया है।

दक्षिण अमेरिका	अफ्रीका
i) अगोली (खरगोश-आकर की कृत्तक)	A) बोसमेन्स पोटो
ii) विशालकाय दमी (आमाड़ीलो)	B) भोटा कस्तूरी-मृग (चेबोटाइल)
iii) पाका	C) पिंगोलिन
iv) तीन अंगूठी वाता रुलाथ	D) शाही मृग (सेथल एन्टीलोप)

दो महाद्वीपों के द्वीप समिन्सित क्रियिक विकास के अवधारणा को प्रदर्शित करने के लिए सूचीयों में दिए गए जातियों का मिलान करें।

1. i - D; ii - C; iii - A; iv - B
2. i - A; ii - C; iii - D; iv - B
3. i - A; ii - B; iii - D; iv - C
4. i - D; ii - C; iii - B; iv - A

132. An alphabetical list of tropical rainforest mammals from South America and Africa is given below:


South America	Africa
i) Agouti	A) Bosman's Potto
ii) Giant Armadillo	B) Chevrotain
iii) Paca	C) Pangolin
iv) Three-toed sloth	D) Royal Antelope

Pair the species in the list to demonstrate the concept of convergent evolution between the two continents.

1. i - D; ii - C; iii - A; iv - B
2. i - A; ii - C; iii - D; iv - B
3. i - A; ii - B; iii - D; iv - C
4. i - D; ii - C; iii - B; iv - A

133. अङ्क के एक प्रजाति के डिम्बकीटो (टैडप्ले) में सीखने की प्रक्रिया के महत्व का अध्ययन उनकी शिकारियों से दूर भागले की अनुक्रिया के विकास के स्टेप्स में किया गया। प्रयोगशाला ने अङ्कों से जिकले हुए डिम्बकीटो को या तो शिकारी सूक्ष्म रसायन की उपस्थिति (पूर्ण अनावृत) या शिकारी सूक्ष्म रसायन की अनुपस्थिति (अनुभवहीन) में

अवश्य-अलग। सप्ताह के लिए रखा गया। इच्छावाली से दूर भागले की अनुक्रिया का परीक्षण एक जीवित शिकारी उपस्थिति में किया गया। उनका परीक्षण या तो अकेले अथवा ३ पुराने अनुभवी डिम्बकीटों के साथ किया गया। नीचे प्रदर्शित रेखाचित्र घार में उन परीक्षियों में परीक्षितों के आगमन की अनुक्रियाओं को प्रदर्शित करता है।




निकाले गये कुछ निष्कर्षों को नीचे दर्शाया गया है।

- A. भागले की अनुक्रिया के विकास के लिए शिकारी सूक्ष्मों की पूर्ण अनावृति आवश्यक है।
  - B. शिकारी सूक्ष्मों की पूर्ण अनावृति भागले की अनुक्रिया के विकास के सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
  - C. पुराने अनुभवी डिम्बकीटों की उपस्थिति भागले की अनुक्रिया के विकास जो सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
  - D. पुराने अनुभवी डिम्बकीटों की उपस्थिति भागले की अनुक्रिया के विकास जो सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
  - E. पुराने रवै अनुभवी डिम्बकीटों के साथ एक पूर्ण अनावृत डिम्बकीट भागले की सर्वाधिक अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं।
- निम्नानुक्रित कठिनों का कौन सा समुच्चय उपरोक्त प्रश्नों का सही निष्कर्ष दर्शाते हैं?
1. A तथा C
  2. B तथा D
  3. A तथा D
  4. A, C तथा E

133. A study tested the importance of learning mechanisms in the development of anti-predator escape responses in tadpoles of a frog species. Tadpoles hatched from eggs in the lab were kept individually either with

predator chemical cues (PRIOR EXPOSURE) or without predator chemical cues (NAIVE) for 1 week. These individuals were tested for their escape response when exposed to a live predator. They were tested either alone or together with 3 older experienced individuals. The graph below shows the escape response of the test individuals in the four different treatments.



Some of the inferences drawn are given below:

- Prior exposure to predator cues is necessary for the development of escape response.
  - Prior exposure to predator cues positively influences the development of escape response.
  - The presence of older experienced individuals is necessary for the development of escape response.
  - The presence of older experienced individuals positively influences the development of escape response.
  - An individual with prior exposure and with older and experienced individuals showed the strongest escape response.
- Which one of the following combination of statements represents the correct inference from the experiment?
- A and C
  - B and D
  - A and D
  - A, C and E

134. पश्चियों में चौथे कम आकार का ग्रन्थिक विकास उनके खाद्य के अनुक्रिया में हुआ है। निम्नांकित सूची पश्चि के जातियों एवं खाद्य के प्रकार को प्रदर्शित करता है।

पश्चि की जाति	खाद्य प्रकार
i. बान स्वाली	A. फल
ii. शेट हार्नबिल	B. फीट
iii. घडेल गोरिया	C. मक्कड़
iv. दंगली सन्दड़	D. बीज

3.A-H

उपरोक्त दर्शाये गये पश्चियों की जाति के साथ उनके खाद्य खाद्य का मिलाय करें।

- i-D; ii-A; iii-C; iv-B
- i-B; ii-D; iii-A; iv-C
- i-C; ii-B; iii-D; iv-A
- i-B; ii-A; iii-D; iv-C

134. Beak shape in birds has evolved in response to their diet. The table listing bird species and food type is given below.

BIRD SPECIES	FOOD TYPE
i. Barn swallow	A. Fruits
ii. Great hornbill	B. Insects
iii. House sparrow	C. Nectar
iv. Purple sunbird	D. Seeds

Match the bird species shown above to their main food resource.

- i-D; ii-A; iii-C; iv-F
- i-B; ii-D; iii-A; iv-C
- i-C; ii-B; iii-D; iv-A
- i-B; ii-A; iii-D; iv-C

135. निम्नांकित घार कथन एकोमेटिरियम के द्वारा पादप कोशिकाओं में होने वाले T-DNA के स्थानांतरण के बारे में हैं।

- VirD1 एवं VirD2 प्रोटीनों के द्वारा एकल-सूत्रीय T-DNA का उत्पादन
  - VirB2 का Vip1 तथा Vip3 के साथ अन्तर्नालक्षण
  - VirB/VirD4 प्रकार IV साधन पद्धति का उपयोग
  - VirA-VirG समूह का सक्रियता घटनाओं का सही क्रम (आरस्म से नीचनतम) है।
- A-B-D-C
  - B-C-A-D
  - C-A-B-D
  - D-A-C-B

135. Given below are four statements related to *Agrobacterium*-mediated transfer of T-DNA into plant cells:

- Production of single-stranded T-DNA by VirD1 and VirD2 proteins.
- Interaction of VirE2 with Vip1 and Vip3.
- Use of VirB/VirD4 type IV secretion system.
- Activation of VirA-VirG complex.

The correct sequence of events (from earliest to latest) is:

- 1. A-B-C-D
- 2. B-C-A-D
- 3. C-A-B-D
- 4. D-A-C-B

- (136). निरसन चुहों का द्विगोण Cre-LoxP विधि का प्रयोग कदम किया जा सकता है। अतः जीवाणुओं में का Cre-रीकार्डिनेश एक 34 bp अनुक्रम lox P पर स्थान-विशिष्ट प्रूल्याजित प्रक्रिया की मद्यरथता करता है। निम्नान्ति कथणों में से बदला घटना का चुनाव करें।
1. गुणसूत्र प्रतोलिपि वा नियत जीवों में बदलाव के लिए ब्रिंजेश-KNA की मात्रायकता होती है।
  2. loxP अनुक्रम चुहा से संसर्ग से पहले Cre रीकार्डिनेश की अभिव्यक्ति नहीं होती चाहिए।
  3. Cre-रीकार्डिनेश की उपस्थिति एक प्रेरणीय उन्नायक द्रवारा किया जा सकता है।
  4. उन्नायक के प्रेरण के कलम्परस्म Cre की अविकल्पिकता, lox P स्थल पर मुन्याजित एवं दीव के अनुक्रम का उच्छेदन होता है।

- (136). Construction of knockout mice may be performed using the Cre-LoxP system. Eventually, the Cre recombinase of the bacteriophage PI mediates site-specific recombination at a 34 bp sequence, lox P. From the following statements, choose the INCORRECT event:
1. The alteration of the chromosomal copy of the target gene requires a guide RNA.
  2. The loxP containing mice should not express Cre recombinase prior to mating.
  3. The Cre recombinase can be expressed by an inducible promoter.
  4. Induction of the promoter results in the expression of Cre, recombination at lox P sites and excision of the sequence in between.

- (137). एकलोनी प्रतिस्फूर्ती में बदलाव जैहतर खोजों एवं उपराजात्मक अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। ऐसे कई पद्धतियाँ (कॉलम A) को उनके सम्बन्धित अनुप्रयोगों (कॉलम B) के साथ जोड़े दर्शाया गया हैं।

कॉलम A	कॉलम B
i. दो के समान नोटेंट्स्मेंट्स के स्थानों पर अन्य प्रतिरक्षी के हैं।	a. उत्तराधिक
ii. एक बदलाव करता।	b. प्रतिरक्षाजी उत्तराधिक
iii. एकलोनी में बदलाव उत्तराधिक गतिशील तथा उपराजात्मक अनुप्रयोगों के लिए अधिक लिप्ति उत्तराधिक गतिशील को नहीं करता।	c. अधिक लिप्ति
iv. या नियान जो कि एक अव्यापक उपराजात्मक के अव्यापक अव्यापक पर विस्तृत है जोकि एवं दिशा नहीं।	d. अधिक लिप्ति
v. नियानकी दोनों सा एक विकल्प कॉलम A एवं B के शब्दावलीय के एक यही समुच्चय को प्रदर्शित करता है।	e. अधिक लिप्ति
vi. i-a; ii-b; iii-c	
vi. i-b; ii-a; iii-c	
vi. i-c; ii-b; iii-d	
vi. i-b; ii-c; iii-e	

- (137). Monoclonal antibodies can be modified for better research and therapeutic applications. Several such approaches are mentioned below (Column A) along with their possible applications (Column B).

Column A	Column B
i. Binding sites of the original mouse mAb are placed onto the Fc regions of human antibodies.	a. Antibodies
ii. Antibodies are modified by conjugation to toxins designed to kill cells to which the antibody will bind.	b. Reduce side effect of xenogenic antibodies in immunotherapy
iii. Generation of mAb that specifically bind and stabilize the transition state of a chemical reaction.	c. Immunotoxins

Which one of the following options represents a correct combination of terms in Column A and Column B?

1. i-a; ii-b; iii-c
2. i-b; ii-a; iii-c
3. i-c; ii-b; iii-a
4. i-b; ii-c; iii-a

138. नीचे दिया गया सारणी पाल्प उत्तर संवर्धन से संबंधित विभिन्न शब्दावलियों को कॉलम A एवं कॉलम B में दर्शाता है।

कॉलम A	कॉलम B
A औस्सीन	i. मूँग उटभव
B प्रीद्रव्यक	ii. 6-फरप्यूरिलेप्साइड-
संवर्धन	नोप्परिस
C साइटोकाइनिन	iii. पेक्टिनेज एवं
D स्पृष्टीजाणु	सोल्लोन
संवर्धन	iv. एज्डोल-3-एसिटिक
	एसिड

निम्नलिखित कौन सा एक विकल्प कॉलम A तथा कॉलम B के सभी शब्दावलियों के बीच के सबसे अपेक्षित मेल को दर्शाता है?

1. A-ii; B-i; C-iv; D-iii
2. A-iv; B-iii; C-ii; D-i
3. A-ii; B-iv; C-i; D-iii
4. A-iv; B-i; C-ii; D-iii

138. Given below is a table comprising various terms associated with plant tissue culture in Column A and Column B.

Column A	Column B
A Auxin	i. Embryogenesis
B Protoplast culture	ii. 6-Furfurylaminopurine
C Cytokinin	iii. Pectinase and Cellulase
D Microspore culture	iv. Indole-3-acetic acid

Which one of the following options represents the most appropriate match between all the terms of Column A and Column B?

1. A-iii; B-i; C-iv; D-iii
2. A-iv; B-iii; C-ii; D-i
3. A-ii; B-iv; C-i; D-iii
4. A-iv; B-i; C-ii; D-iii

139. एक व्यवसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्राकृतिक जीव से शोधित एन्जाइम के उत्पादन को बढ़ाने के एक प्रयत्न के दौरान नीचे प्रदर्शित विभिन्न उपयोगों को अपनाया गया।

A. संजीव (जीवों) को चयनस्थल के तरीके से अधिक उत्पादन के लिए प्रतिवर्तित किया गया।

B. परिवर्तित जीव के संवर्धन आवश्यकताओं को अधिक उत्पादन के लिए पुनः निर्धारित किया गया।

C. प्रेरित उत्परिवर्तीयों का अनुवीक्षण किया गया तथा उस जीव को ध्यानित किया गया जो कि एन्जाइम के बढ़े हुए सात्रा का संरक्षण करता है।

D. जीव को आनुषांशिक रूप से प्रतिवर्तित किया गया जिससे कि यह एक ऐसे क्षमता का उत्पादन करता है जो कि एन्जाइम की स्थिरता को बढ़ाता है।

निम्नलिखित कौन सा एक विकल्प उन नीतियों को दर्शाता है जोकि उद्देश्य के लिए उपयुक्त है?

1. A, B, C तथा D
2. केवल B तथा C
3. केवल A, C तथा D
4. केवल A तथा B

139. In an attempt to increase the yield of a commercially important enzyme from natural isolate, several strategies were adopted as follows:

- A. Genome was selectively modified to increase yield.
- B. Reappraisal of culture requirements of the modified organism to increase yield.
- C. Induced mutants were screened and selected for organism synthesizing improved levels of the enzyme.
- D. Organism was genetically modified, so that it produces a factor that enhances stability of the enzyme.

Which one of the following options represents strategies that are appropriate for the purpose?

1. A, B, C and D
2. B and C only
3. A, C and D only
4. A and B only

140. नीचे कुछ तकनीकों के नाम (कॉलम A) एवं उनके अप्लिकेशन/अनुप्रयोगों को (कॉलम B) में दर्शाया गया है:

कॉलम A	कॉलम B
A. हाइब्रिडोमा तकनीक	(i) प्रोटीनों का उनके आवेदन के अनुसार पश्चिकरण
B. माल्डी-टोफ (MALDI-TOF)	(ii) कोशिकाओं में प्रोटीन शोधिकों की पहचान
C. आयन विनियम बर्णनिक्षण	(iii) समान प्रतिरक्षीयों का उत्पादन
D. माह-प्रतिरक्षा अवक्षेपण	(iv) प्रोटीन एवं/या पेन्टाइड के अण्डिक आप का निर्धारण

निम्नांकित कौन सा एक कॉलम A तथा कॉलम B के बीच के सही मेल की दर्शता है:

1. A-(ii); B-(iii); C-(iv); D-(i)
2. A-(iii); B-(iv); C-(i); D-(ii)
3. A-(iv); B-(i); C-(ii); D-(iii)
4. A-(ii); B-(iv); C-(i); D-(iii)

140. Given below are names of techniques (Column A) and their characteristic features/applications (Column B):


Column A	Column B
A. Hybridoma technology	(i) Separation of proteins according to charge
B. MALDI - TOF	(ii) Identification of protein complexes in cells
C. Ion-exchange chromatography	(iii) Production of identical antibodies
D. Co-immuno-precipitation	(iv) Determination of molecular weight of proteins and/or peptides

Which one of the following represents a correct match between Column A and Column B:

1. A-(ii); B-(iii); C-(iv); D-(i)
2. A-(iii); B-(iv); C-(i); D-(ii)
3. A-(iv); B-(i); C-(ii); D-(iii)
4. A-(ii); B-(iv); C-(i); D-(iii)

3-A-H


141. तीन प्रोटीनों, Blm 1, Blm 2, Blm 3 की सहभागिता DNA द्वितीजुक क्षतिरक्षार में दर्शाया गया। एक क्रोमेटिज्मप्रिप्रेशन अवक्षेपण प्रयोग इन तीनों प्रोटीनों के लिए किया गया। प्राप्त परिणामों के प्रतिरूप नों नीचे दिखाया गया है:



उपरोक्त छिप के अधीन पर, उभय विकल्प का स्थान करें जो तथ्यों को सही तरीके से विवेचित करें।

1. Blm 1, Blm 2, Blm 3 DNA द्वारा के स्थान पर बंधता है।
2. Blm 1 द्वारा के स्थान पर बंधता है, Blm 2 द्वारा स्थान एवं उसके अतिरिक्त बंधता है।
3. द्वारा के प्रेरित होने के पश्चात् Blm 2 DNA से बंधा ही रहता है।
4. द्वारा के निरपेक्ष Blm 3 DNA से बंधता है।

141. Three proteins, Blm 1, Blm 2, Blm 3 were shown to be involved in repair of DNA double strand breaks. A chromatin immunoprecipitation experiment was performed for the three proteins. The pattern of results obtained is shown below:



Based on the above figure, choose the option that correctly interprets the data.

1. Blm 1, Blm 2, Blm 3 bind to DNA break sites
2. Blm 1 binds to the break site; Blm 3 binds to the break site and beyond

3. Blm 2 remains bound to DNA after the break is induced  
 4. Blm 3 binds to DNA irrespective of the break

142. किसी सूक्ष्मदर्शी का सबसे सहजपूर्ण गुण उसका विशेषता (D) है। निम्नांकित कौन सा एक तरंग दैर्घ्य का उपयोग एक सूक्ष्मदर्शी जिसके लैस का संख्यात्मक अवधारक (NA) 1.4 है, के द्वारा सर्वांतम विशेषता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है?

- 430
- 480
- 560
- 700

142. The most important property of any microscope is its resolution (D). Which one of the following wavelengths (nm) would be used to achieve the best resolution using a light microscope with lenses having numerical aperture (NA) of 1.4?

- 430
- 480
- 560
- 700

143. एक 600 MHz चंड का उपयोग करके एक 20-परिशिष्ट पेप्टाइड की विस्तृत NMR वर्णक्रम अभिलिखित किया गया। यदि पेप्टाइड  $\alpha$ -कुड़लित आकार धारण करता है, निम्नांकित कौन सा कथन सही है?

- विशेष  $\text{NH}_\alpha - \text{NH}_\beta$ , NOE शिखर, साथ में  $^3J_{\text{NH}_\alpha-\text{H}\alpha}$  युग्मनांक ~ 8.5 Hz
- विशेष  $\text{C}_\alpha\text{H}_\alpha - \text{NH}_\beta$ , NOE शिखर, साथ में  $^3J_{\text{NH}_\beta-\text{H}\alpha}$  युग्मनांक ~ 4.8 Hz
- विशेष  $\text{C}_\alpha\text{H}_\alpha - \text{NH}_\beta$ , NOE शिखर, साथ में  $^3J_{\text{NH}_\beta-\text{H}\alpha}$  युग्मनांक ~ 8.5 Hz
- विशेष  $\text{NH}_\alpha - \text{NH}_\beta$ , NOE शिखर, साथ में  $^3J_{\text{NH}_\beta-\text{H}\alpha}$  युग्मनांक ~ 4.8 Hz

143. Detailed NMR spectra of a 20-residue peptide were recorded using a 600 MHz instrument. If the peptide adopts an  $\alpha$ -helical conformation, which one of the following statements is correct?

- Prominent  $\text{NH}_\alpha - \text{NH}_\beta$ , NOE peaks would be observed along with  $^3J_{\text{NH}_\alpha-\text{H}\alpha}$  coupling constants ~ 8.5 Hz
- Prominent  $\text{C}_\alpha\text{H}_\alpha - \text{NH}_\beta$ , NOE peaks would be observed along with  $^3J_{\text{NH}_\beta-\text{H}\alpha}$  coupling constants ~ 4.8 Hz

3. Prominent  $\text{C}_\alpha\text{H}_\alpha - \text{C}_\beta\text{H}_\beta$ , NOE peaks with  $^3J_{\text{NH}_\alpha-\text{H}\beta}$  coupling constants ~ 8.5 Hz  
 4. Prominent  $\text{NH}_\alpha - \text{NH}_\beta$ , NOE peaks along with  $^3J_{\text{NH}_\beta-\text{H}\alpha}$  coupling constants ~ 4.8 Hz

144. नीचे सांख्यिकीय बटन के नाम (कॉलम I) एवं उनके अभिलिखित विशेषताओं (कॉलम II) को दर्शाया गया है।

कॉलम I	कॉलम II
A. द्विपद बटन	(i) अत्येक अवलोकन द्वारा जलीजा में से एक को दर्शाता है (सफल या असफल)
B. प्लास्टीक बटन	(ii) अनुमानित बटन जो कि औसत के आसपास संलिपित है
C. सामान्य बटन	(iii) समय के एक निश्चियत अंतराल में एक दिर्घे गये घटना के छोटे की संख्या की प्रायिकता

निम्नांकित कौन सा एक कॉलम I एवं II के बीच के सही सेव को दर्शाता है?

- A - (ii); B - (i); C - (iii)
- A - (i); B - (ii); C - (iii)
- A - (i); B - (iii); C - (ii)
- A - (iii); B - (ii); C - (i)

144. Given below are names of statistical distribution (Column I) and their characteristic features (Column II)

Column I	Column II
A. Binomial distribution	(i) Each observation represents one of two outcomes (success or failure)
B. Poisson distribution	(ii) Probability distribution that is symmetric about the mean
C. Normal distribution	(iii) Probability of a given number of events happening in a fixed interval of time

Which one of the following represents a correct match between columns I and II?

1. A - (i); B - (ii); C - (iii)
2. A - (i); B - (ii); C - (iii)
3. A - (i); B - (iii); C - (ii)
4. A - (iii); B - (ii); C - (i)

145. उच्च शोधित पेप्टाइड P1, P2 एवं P3 का उपयोग माल्डी (MALDI) दब्यमान वर्णकला विश्लेषण के लिए किया गया। निम्न पर्यावरण प्राप्त किए गए:

P1: 16 का m/z दशीया जो कि अपेक्षित मान से अधिक है।

P2: 80 का m/z दशीया जो कि उपेक्षित मान से अधिक है। पेप्टाइड का MS/MS वर्णकला पूर्वदर्ती आयन उत्पन्न किए जिनका m/z 98 है एवं अपेक्षित m/z मान से कम है।

P3: अपेक्षित मान की तुलना में दुगुना m/z दशीया।

[नोट: z = +1 सभी दब्यमान वर्णकला के लिए]

निम्नांकित कौन सा एक विकल्प सभी सही दिवेयमानों को परिलेखित करता है?

1. P1: Cys ऑक्सीकृत है; P2: बहुत Met परिशिर्षों पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया से गुजरा है; P3: एक असहस्रयोजी द्रवितय है।
2. P1: Met ऑक्सीकृत है; P2: कास्फोरिलेटेड है; P3: एक सहस्रयोजी द्रवितय है।

3. P1: Met ऑक्सीकृत है; P2: बहुत Cys ऑक्सीकृत है; P3: एक सहस्रयोजी द्रवितय है।

4. P1: Cys ऑक्सीकृत है; P2: Met पर कास्फोरिलेटेड एवं ऑक्सीकृत है; P3: एक असहस्रयोजी द्रवितय है।

145. Highly purified peptides P1, P2 and P3 were subjected to MALDI mass spectral analysis. The following observations were made:

- P1: Showed a m/z of 16 more than the expected value.
- P2: Showed a m/z of 80 more than the expected value. MS/MS spectra of the peptide resulted in a precursor ion with m/z 98 less than the expected m/z.
- P3: Showed a m/z that was double the expected value.

[Note: z = +1 for all the mass spectra.]

Which one of the options given below comprises all correct interpretations?

1. P1: Cys is oxidized; P2: has undergone oxidation at multiple Met residues; P3: is a non-covalent dimer.
2. P1: Met is oxidized; P2: is phosphorylated; P3: is a covalent dimer.
3. P1: Met is oxidized; P2: multiple Cys are oxidized; P3 is a covalent dimer.
4. P1: Cys is oxidized; P2: phosphorylated and oxidized at Met; P3: is a non-covalent dimer.